

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 4
PART I—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 26, 1976/माघ 6, 1897
No. 2] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 26, 1976/MAGHA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

रक्षा मंत्रालय
(थल सेना विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1976

सं० 2-बी, दिनांक 22 जनवरी 1976.—भारत स्थित सेना विनियमावली 1962 के पैरा 178 के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित ज सी ओएस को गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी 1976) के अवसर पर अवैतनिक पद प्रदान करते हैं:—

अवैतनिक कैंपेन के रैंक में

● हास

1 जे सी 12908

रिसालदार मेजर व अवैतनिक प्रकाश सिंह
लैफ्टिनेंट

61 केबलरी

2 जे सी 546

रिसालदार मेजर व अवैतनिक एस सैन्जीवराज उरस
लैफ्टिनेंट

64 केवलरी

3	जे सी	12582	रिसालदार मेजर व अवैतनिक	भनफूल सिंह लैफ्टिनेंट
---	-------	-------	-------------------------	--------------------------

तोपखाना रेजिमेंट

4	जे सी	8485	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	जोगिन्द्र सिंह लैफ्टिनेंट
5	जे सी	9682	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	एम बालाकृष्णन नाथर लैफ्टिनेंट
6	जे सी	9009	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	मनोहर लाल लैफ्टिनेंट
7	जे सी	9011	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	श्रीमकार सिंह लैफ्टिनेंट
8	जे सी	14363	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	फूस सिंह लैफ्टिनेंट

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

9	जे सी	12819	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	एस अब्दुल मजीद लैफ्टिनेंट
10	जे सी	16415	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	सम्पन्नगिराज लैफ्टिनेंट

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

11	जे सी	10194	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	आनन्द सिंह लैफ्टिनेंट
12	जे सी	10197	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	जयानन्द भरतबा लैफ्टिनेंट
13	जे सी	12294	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	करतार सिंह लैफ्टिनेंट

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

14	जे सी	10769	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	गुरदीप सिंह लैफ्टिनेंट
15	जे सी	10772	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	राम करन सिंह लैफ्टिनेंट

सिगनल्स कोर

16	जे सी	16881		
17	जे सी	11388	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	लैफ्टिनेंट
18	जे सी	18142	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	केहर सिंह लैफ्टिनेंट
19	जे सी	12813	सूबेदार मेजर व अवैतनिक	बी भाषवन नायर लैफ्टिनेंट

ਪੰਜਾਬ ਰੇਜਿਮੈਂਟ

20 ਜੇ ਸੀ 24413 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਜੈਸੀ ਰਾਮ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

ਅਬਾਸ ਰੇਜਿਮੈਂਟ

21 ਜੇ ਸੀ 6335 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਨਰਾਯਨਾ ਪਿਲੇ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

22 ਜੇ ਸੀ 6334 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਪੀ ਬਲਾਬੁਧਨ ਨਾਧਰ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

23 ਜੇ ਸੀ 13505 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਆਰ ਅਰੁਮੁਗਮ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

24 ਜੇ ਸੀ 9903 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਵੀ ਬਾਲਾਕੁਞਨਨ ਨਾਧਰ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

ਧਨੇਤਿਧਰਸ

25 ਜੇ ਸੀ 12135 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਇਨਾਯਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਵੀ ਐਸ ਮ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਫ਼ਲਸ

26 ਜੇ ਸੀ 8200 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਕੇਸ਼ਰੀ ਸਿੰਹ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

27 ਜੇ ਸੀ 13802 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

28 ਜੇ ਸੀ 7555 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਸ਼ੀਤਾਨ ਸਿੰਹ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

29 ਜੇ ਸੀ 16001 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿਸ਼ਰ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

ਰਾਜਪੂਤ ਰੇਜਿਮੈਂਟ

30 ਜੇ ਸੀ 11057 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਹ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

ਯਾਟ ਰੇਜਿਮੈਂਟ

31 ਜੇ ਸੀ 8695 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਹੀਸ਼ਿਧਾਰ ਸਿੰਹ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

32 ਜੇ ਸੀ 37544 ਸੂਬੇਦਾਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਰਾਮ ਸਿੰਹ

ਸਿਲ੍ਹਾ ਰੇਜਿਮੈਂਟ

33 ਜੇ ਸੀ 16617 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਅਸ਼ਵਨ੍ਤ ਸਿੰਹ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

34 ਜੇ ਸੀ 13541 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਹ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

35 ਜੇ ਸੀ 10387 ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਵ ਅਵੈਤਨਿਕ ਪ੍ਧਾਰਾ ਸਿੰਹ
ਲੈਫਟਨੈਂਟ

सिख लाइट इन्फेंट्री

36	जे सी 9759 पी	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बुध सिंह
----	---------------	--------------------------------------	----------

डोगरा रेजिमेंट

37	जे सी 6169	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगन नाथ
38	जे सी 24128	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कोर सिंह
39	जे सी 10050	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रतन चन्द

गढ़वाल राइफल्स

40	जे सी 12098	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भवानी सिंह नेगी
41	जे सी 12238	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दर्शन सिंह नेगी

कुमायूं रेजिमेंट

42	जे सी 17131	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम चन्द्र, बीर चक्र
----	-------------	------------------------------	----------------------

आसाम रेजिमेंट

43	जे सी 12454	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तेमजेनमेरंग ए ओ
----	-------------	--------------------------------------	-----------------

बिहार रेजिमेंट

44	जे सी 12254	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चार्ल्स किस्कू
45	जे सी 12253	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मुन्शी कुआर
46	जे सी 9454	बेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम नाथ पाण्डे
47	जे सी 15244	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धनोपाल सिंह

जम्मू व कश्मीर राइफल्स व लद्दाख स्कौट्स

48	जे सी 16675	सुबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	साधू सिंह
49	जे सी 32137	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जनक सिंह
50	जे सी 25939	सुबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कांशी राम

जम्मू व कश्मीर मिलिशिया

51 जे सी 50 सूबेदार व अवतनिक लैफ्टनेट कीर्तन सिंह

5 गोरखा राइफल्स

52 जे सी 19830 सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट नरबहादुर गुरंग

सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

53 जे सी 12390 रिसालदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट रघवीर सिंह

54 जे सी 19888 रिसालदार व अवतनिक लैफ्टनेट धूली चन्द

55 जे सी 27466 रिसालदार व अवतनिक लैफ्टनेट घनश्याम सिंह विष्ट

56 जे सी 19906 रिसालदार व अवतनिक लैफ्टनेट प्रभाकरन पिल्ले

57 जे सी 17974 रिसालदार व अवतनिक लैफ्टनेट रंजीत सिंह

58 जे सी 19859 रिसालदार व अवतनिक लैफ्टनेट ताजवर सिंह भण्डारी

सेना सेवा कोर (यांत्रिक परिवहन)

59 जे सी 36953 सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट ज्ञानी राम

60 जे सी 24631 सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट के सी चेल्लापन

सेना चिकित्सा कोर

61 जे सी 22696 सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट राम किशोर

62 जे सी 22700 सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट राम सिंह

63 जे सी 22694 सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट सच्चिदानन्द

64 जे सी 22705 सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट विद्या सागर

सेना आर्डिनेंस कोर

65 45898 जे सी सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट ए के बालाकृष्णन

66 48979 जे सी सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट नाम चन्द भाटिया

67 55902 जे सी सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट पी के मधायन मैन्न

68 48992 जे सी सूबेदार मेजर व अवतनिक लैफ्टनेट रमेन्द्रभोहन चौधरी

विद्युत व यांत्रिक इंजीनियर कोर

69	जे सी	19394	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	चरन सिंह
70	जे सी	3851	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	कालीपड़ा भट्टाचार्य
71	ज सी	3715	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	लहित बिरास
72	ज सी	3670	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	एम गोपाला कृष्णन
73	ज सी	8934	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	एम डी भास्कर
74	ज सी	3698	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	सुभेन्द्र लाल मन्ना
75	जे सी	8518	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	सुन्दर सिंह
76	जे सी	3649	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	वेद प्रकाश सोधती

सेना शिक्षा कोर

77	जे सी	4260	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	कदेमादा करियप्पा
78	जे सी	12873	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	तोता सिंह रक्ता

पाइलियर कोर

79	जे सी	13731	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	चिन्नाप्पा राज
80	जे सी	11832	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	पान सिंह

रक्षा सुरक्षा कोर

81	40459	जे सी	सुबेदार मेजर व लैफ्टिनेंट	अवैतनिक	सी एस नायर
----	-------	-------	------------------------------	---------	------------

अवैतनिक लेफ्टिनेंट के रैंक में**7 केवलरी**

1	जे सी	15790	रिसालदार मेजर	गिरधारी लाल
2	जे सी	12210	रिसालदार मेजर	हरजिन्दर सिंह

बी सेन्ट्रल इंडिया हॉस

3	जे सी	12042	रिसालदार मेजर	करम सिंह
---	-------	-------	---------------	----------

61 केवलरी

4	जे सी	547	रिसालदार मेजर	नारायण राव शिन्दे
---	-------	-----	---------------	-------------------

तोपखाना रेजिमेंट

5	जे सी	10815	सूबेदार मेजर	ए कृष्णन नायर
6	जे सी	13061	सूबेदार मेजर	भागीरथ सिंह
7	जे सी	11426	सूबेदार मेजर	जी भ्रानन्दा राव
8	जे सी	9600	सूबेदार मेजर	हरद्वारी लाल यादव
9	जे सी	14367	सूबेदार मेजर	खिन्व सिंह
10	जे सी	12079	सूबेदार मेजर	एम केसवन नायर
11	जे सी	14393	सूबेदार मेजर	भवासी
12	जे सी	9686	सूबेदार मेजर	एन राजगोपालन नायर
13	जे सी	9678	सूबेदार मेजर	पी जी जोयप्पा
14	जे सी	27057	सूबेदार मेजर	पारब्रह्म सिंह
15	जे सी	9264	सूबेदार मेजर	राम चन्दर
16	जे सी	12564	सूबेदार मेजर	राम लाल
17	जे सी	15434	सूबेदार मेजर	राम प्रकाश
18	जे सी	12541	सूबेदार मेजर	रंजीत सिंह
19	जे सी	10621	सूबेदार मेजर	सोहन सिंह
20	जे सी	9673	सूबेदार मेजर	थंगप्पा
21	जे सी	17416	सूबेदार	भर्जन सिंह
22	जे सी	30190	सूबेदार	बनवारी लाल
23	जे सी	24249	सूबेदार	बापू जाधव
24	जे सी	32789	सूबेदार	भाग सिंह
25	जे सी	30328	सूबेदार	भूप सिंह
26	जे सी	40253	सूबेदार	बिश्मल सिंह
27	जे सी	32249	सूबेदार	चरन सिंह
28	जे सी	25843	सूबेदार	दलोप सिंह
29	जे सी	33302	सूबेदार	ध्यान सिंह
30	जे सी	17392	सूबेदार	जार्ज एनएस
31	जे सी	18890	सूबेदार	गुरबक्श सिंह
32	जे सी	25821	सूबेदार	हरबंस सिंह
33	जे सी	30200	सूबेदार	हरबंस सिंह
34	जे सी	33315	सूबेदार	जागीर सिंह
35	जे सी	25815	सूबेदार	करतार सिंह
36	जे सी	24263	सूबेदार	एल कृष्णन
37	जे सी	34647	सूबेदार	माखन सिंह
38	जे सी	33425	सूबेदार	मंगल सिंह
39	जे सी	17405	सूबेदार	नाजर सिंह
40	जे सी	24282	सूबेदार	पी जी माधवन
41	जे सी	18889	सूबेदार	सरूप सिंह
42	जे सी	45498	सूबेदार	तुकाराम मास्के

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

43	जे सी	17137	सूबेदार मेजर	ए मानाकाबू
44	ज पी	13219	सूबेदार मेजर	के कानन
45	जे सी	13229	सूबेदार मेजर	के बी प्रभाकर पानोकर
46	जे सी	19373	सूबेदार मेजर	एम एस श्री निवासन
47	ज सी	13221	सूबेदार मेजर	पी रामचन्द्रा राव
48	जे सी	13230	सूबेदार मेजर	रामकृष्णन नायर
49	जे सी	17138	सूबेदार मेजर	टी के चन्द्रशेकरन नायर

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

50	जे सी	20842	सूबेदार मेजर	अनेक सिंह
51	जे सी	13326	सूबेदार मेजर	चांदी प्रशाद
52	ज सी	12995	सूबेदार मेजर	दया नंद
53	जे सी	26808	सूबेदार मेजर	दयाल सिंह
54	ज सी	11627	सूबेदार मेजर	धर्म सिंह
55	जे सी	12979	सूबेदार मेजर	प्रीतम सिंह
56	जे सी	12998	सूबेदार मेजर	रामा नंद सिंह
57	जे सी	10718	सूबेदार मेजर	सुरेन्द्र सिंह

बोम्बे इंजीनियर ग्रुप

58	ज सी	13921	सूबेदार मेजर	अमर सिंह
59	जे सी	13670	सूबेदार मेजर	गुरदियाल सिंह
60	जे सी	13771	सूबेदार मेजर	दत्तात्रे गारोद
61	जे सी	13916	सूबेदार मेजर	शामराव जगतप
62	जे सी	13712	सूबेदार मेजर	शंकर काले
63	जे सी	13713	सूबेदार मेजर	सोताराम लाबंद
64	जे सी	9718	सूबेदार मेजर	तुलसी राम
65	जे सी	34480	सूबेदार	प्रेम सिंह
66	जे सी	31840	सूबेदार	मरवन सिंह

कोर ग्राफ सिगनलस

67	जे सी	16889	सूबेदार मेजर	अमीन बंद
68	जे सी	27327	सूबेदार मेजर	सी श्री चेरियन
69	ज सी	12768	सूबेदार मेजर	श्री राम
70	जे सी	42074	सूबेदार	धर्म पाल
71	जे सी	42031	सूबेदार	मेहताब सिंह, सेना मैडल
72	जे सी	29422	सूबेदार	पी जे थामस
73	जे सी	30254	सूबेदार	पी के माधवन नायर

ज़िगेड ग्राफ दी गार्डस

74	जे सी	21117	सूबेदार मेजर	ए. डी. राम
75	जे सी	15044	सूबेदार मेजर	मान सिंह
76	जे सी	29662	सूबेदार	जयवंत सिंह
77	जे सी	41082	सूबेदार	पीताम्बर दत्त पाठक
78	जे सी	46185	सूबेदार	प्रेम सिंह

बी पेरामुट रेजिमेंट

79	जे सी	16563	सूबेदार मेजर	हर सिंह
80	जे सी	24397	सूबेदार मेजर	शंकर सिंह
81	जे सी	36512	सूबेदार	शिव चंद

बी पंजाब रेजिमेंट

82	जे सी	9768	सूबेदार मेजर	भाग सिंह
83	जे सी	16435	सूबेदार मेजर	शिरी चंद
84	जे सी	30372	सूबेदार	ग्यान चंद
85	जे सी	38223	सूबेदार	गरबक्श सिंह, अशोका चक्र, सैना मैडल
86	जे सी	32344	सूबेदार	हरी सिंह
87	जे सी	33205	सूबेदार	मेहर चंद
88	जे सी	33175	सूबेदार	सीधिन्दर सिंह
89	जे सी	35016	सूबेदार	तिसक राज

बी मद्रास रेजिमेंट

90	जे सी	10284	सूबेदार मेजर	के नटराजन
91	जे सी	14635	सूबेदार मेजर	के के नायर
92	जे सी	8729	सूबेदार मेजर	शंकर गव. केसरकर
93	जे सी	13939	सूबेदार	एस. जेलिहा
94	जे सी	38655	सूबेदार	एस. के. एम. मनी

बी प्रिन्सेडियरस

95	जे सी	12137	सूबेदार मेजर	असघर सिंह
96	जे सी	16777	सूबेदार मेजर	गोरधन सिंह
97	जे सी	12133	सूबेदार मेजर	पदम देव यादव
98	जे सी	16746	सूबेदार मेजर	यासिन खान
99	जे सी	33112	सूबेदार	भवानी सिंह
100	जे सी	23282	सूबेदार	दुर्गा सिंह
101	जे सी	11990	सूबेदार	करम सिंह
102	जे सी	16748	सूबेदार	मनषार
103	जे सी	27723	सूबेदार	रहीम खान
104	जे सी	33815	सूबेदार	शिव नागायन

बी मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

105	जे सी	12858	सूबेदार मेजर	हरी बांदेकर
106	जे सी	33775	सूबेदार	भागेल सिंह
107	जे सी	36456	सूबेदार	भगवान शिन्दे
108	जे सी	16809	सूबेदार	कृष्णा पोवार
109	जे सी	33777	सूबेदार	नारायण सास्ते
110	जे सी	26576	सूबेदार	नारायण शेलके
111	जे सी	35287	सूबेदार	पांडुरंग मोरे
112	जे सी	36461	सूबेदार	शांबाजी सालवी
113	जे सी	28414	सूबेदार	तुकाराम रीत

बी राजपूताना राइफल्स

114	जे सी	6718	सूबेदार मेजर	बाने सिंह
115	जे सी	18020	सूबेदार मेजर	भंवर सिंह
116	जे सी	21770	सूबेदार	भारत सिंह
117	जे सी	18034	सूबेदार	भोपाल सिंह
118	जे सी	12249	सूबेदार	दलीप सिंह
119	जे सी	35269	सूबेदार	दुल सिंह
120	जे सी	16463	सूबेदार	मूंशी सिंह
121	जे सी	38243	सूबेदार	रामसरूप राम

बी राजपूत रेजिमेंट

122	जे सी	19252	सूबेदार मेजर	बाबू लाल सिंह
123	जे सी	14668	सूबेदार मेजर	देबी सहाय
124	जे सी	17708	सूबेदार मेजर	प्रभु सिंह
125	जे सी	15352	सूबेदार मेजर	रिह सिंह
126	जे सी	20573	सूबेदार मेजर	साजिन कंवर सिंह
127	जे सी	17703	सूबेदार मेजर	सयार सिंह
128	जे सी	41894	सूबेदार	भंवर सिंह
129	जे सी	30966	सूबेदार	गद सिंह
130	जे सी	39917	सूबेदार	जगन नाथ
131	जे सी	23257	सूबेदार	पाने सिंह
132	जे सी	26102	सूबेदार	राजदेश्रो सिंह
133	जे सी	24037	सूबेदार	राम दुलार सिंह
134	जे सी	31991	सूबेदार	राम फूल राम
135	जे सी	36200	सूबेदार	राम प्रसाद दुबे
136	जे सी	36906	सूबेदार	राम सिंहासन सिंह
137	जे सी	35162	सूबेदार	एस सी शर्मा
138	जे सी	26103	सूबेदार	सदूल सिंह
139	जे सी	28244	सूबेदार	सुचेता नंद सिंह

*दी जाट रेजिमेंट

140	जे सी	12353	सूबेदार मेजर	बल राम
141	जे सी	16740	सूबेदार मेजर	दलीप सिंह
142	जे सी	11561	सूबेदार मेजर	हुशियारा सिंह
143	जे सी	14294	सूबेदार मेजर	करन सिंह
144	जे सी	16178	सूबेदार मेजर	राम कंवर
145	जे सी	12632	सूबेदार मेजर	राम सरूप
146	जे सी	11978	सूबेदार मेजर	रंगी राम
147	जे सी	12168	सूबेदार मेजर	सुलतान सिंह, सेना मैडल
148	जे सी	35056	सूबेदार	चन्दर भान
149	जे सी	18394	सूबेदार	दीवान सिंह
150	जे सी	30557	सूबेदार	पह्लाद सिंह, वीर चक्र
151	जे सी	33786	सूबेदार	राम दत्त
152	जे सी	36251	सूबेदार	रिछ पाल
153	जे सी	37775	सूबेदार	रूप चंद
154	जे सी	35052	सूबेदार	सूरज भान
155	जे सी	35065	सूबेदार	उमराव सिंह
156	जे सी	42285	सूबेदार	जिले सिंह

दी सिख रेजिमेंट

157	जे सी	14659	सूबेदार मेजर	दलीप सिंह
158	जे सी	15143	सूबेदार मेजर	हरबंस सिंह
159	जे सी	15139	सूबेदार मेजर	जागीर सिंह
160	जे सी	16029	सूबेदार मेजर	मोहन सिंह
161	जे सी	30617	सूबेदार	गंगा सिंह
162	जे सी	31212	सूबेदार	जोगा सिंह
163	जे सी	16021	सूबेदार	जोगिन्दर सिंह
164	जे सी	35604	सूबेदार	करतार सिंह
165	जे सी	17934	सूबेदार	करतार सिंह
166	जे सी	18077	सूबेदार	मंगत सिंह

दी सिख लाइट इनफैंट्री

167	जे सी	28988 एफ	सूबेदार मेजर	इन्दर सिंह
168	जे सी	13298 एन	सूबेदार मेजर	करम सिंह
169	जे सी	14516 एन	सूबेदार मेजर	लाहिम्बर सिंह
170	जे सी	15724 पी	सूबेदार मेजर	उदम सिंह
171	जे सी	38608 बाई	सूबेदार	दलीप सिंह
172	जे सी	12146 ए	सूबेदार	हरमेल सिंह
173	जे सी	27701 ए	सूबेदार	हजुरा सिंह
174	जे सी	16497 एम	सूबेदार	करतार सिंह
175	जे सी	35032 एफ	सूबेदार	मुख्तियार सिंह
176	जे सी	38615 पी	सूबेदार	राम सिंह

बी डोगरा रेजिमेंट

177	जे सी	16080	सूबेदार मेजर	हेम सिंह गुलेरिया
178	जे सी	12122	सूबेदार मेजर	कांशी राम
179	जे सी	12121	सूबेदार मेजर	शमशेर सिंह
180	जे सी	33591	सूबेदार	धनी चंद
181	जे सी	34260	सूबेदार	ग्यान चंद
182	जे सी	39142	सूबेदार	नानक चंद
183	जे सी	33438	सूबेदार	रघवीर सिंह

बी गढ़वाल राइफल्स

184	जे सी	16379	सूबेदार मेजर	भवान सिंह विष्ट
185	जे सी	16381	सूबेदार मेजर	गंगा सिंह कुंवर
186	जे सी	17953	सूबेदार मेजर	किरपाल सिंह नेगी
187	जे सी	11352	सूबेदार मेजर	मदन सिंह रिगवाला
188	जे सी	15218	सूबेदार मेजर	उमराव सिंह नेगी
189	जे सी	32897	सूबेदार	ब्रह्मा नंद नौगांड
190	जे सी	34522	सूबेदार	महावीर प्रसाद नैथानी
191	जे सी	32233	सूबेदार	पिरथबी सिंह रावत
192	जे सी	44566	सूबेदार	रघुवीर सिंह रावत

बी कुमाऊं रेजिमेंट

193	जे सी	15234	सूबेदार मेजर	बिशन सिंह
194	जे सी	21110	सूबेदार मेजर	चंदगी
195	जे सी	16358	सूबेदार मेजर	जयंत सिंह
196	जे सी	9023	सूबेदार मेजर	केशव सिंह
197	जे सी	10530	सूबेदार मेजर	यादुनाथ सिंह
198	जे सी	37585	सूबेदार	आन सिंह
199	जे सी	37031	सूबेदार	आन सिंह
200	जे सी	31326	सूबेदार	अभय सिंह
201	जे सी	35001	सूबेदार	बदलू राम
202	जे सी	48941	सूबेदार	बासा दत्त
203	जे सी	41088	सूबेदार	भवानी दत्त
204	जे सी	35407	सूबेदार	बिस राम
205	जे सी	38569	सूबेदार	चंचल सिंह
206	जे सी	23008	सूबेदार	दामोदर
207	जे सी	28840	सूबेदार	देवी सिंह
208	जे सी	39459	सूबेदार	गम्भीर सिंह
209	जे सी	18193	सूबेदार	गिरधारी लाल
210	जे सी	39457	सूबेदार	गोपाल दत्त

211	जे सी	36143	सुबेदार	कल्याण सिंह
212	जे सी	31330	सुबेदार	कान्ही राम
213	जे सी	39318	सुबेदार	केशर सिंह
214	जे सी	39822	सुबेदार	माधवा नंद
215	जे सी	31329	सुबेदार	मोहन सिंह
216	जे सी	21104	सुबेदार	नारायण दत्त
217	जे सी	36885	सुबेदार	नरपत सिंह
218	जे सी	41087	सुबेदार	प्रताप सिंह
219	जे सी	37713	सुबेदार	पुष्कर सिंह
220	जे सी	49337	सुबेदार	राम सिंह
221	जे सी	42757	सुबेदार	शेखरोताज सिंह
222	जे सी	20580	सुबेदार	सिरी राम
223	जे सी	17133	सुबेदार	सुबी राम
224	जे सी	35003	सुबेदार	टेक चंद

बी आसाम रेजिमेंट

225	जे सी	17698	सुबेदार मेजर	जबहुंगा
226	जे सी	12441	सुबेदार मेजर	लालछुंगा
227	जे सी	24842	सुबेदार	बोलोराम भुयान
228	जे सी	25653	सुबेदार	मिके जायक्स

बी महार रेजिमेंट

229	जे सी	10375	सुबेदार मेजर	चैन सिंह
230	जे सी	11988	सुबेदार मेजर	राम चन्द्रा गायकवाड़
231	जे सी	10760	सुबेदार मेजर	सरबन सिंह
232	जे सी	39276	सुबेदार	दान सिंह
233	जे सी	14761	सुबेदार	गुरबचन सिंह
234	जे सी	25553	सुबेदार	थंडु राम

बी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफल्स एण्ड लद्दाख स्काउट्स

235	जे सी	14152	सुबेदार मेजर	बल बहादुर सिंह, सेना मैडल
236	जे सी	15195	सुबेदार मेजर	जनक सिंह
237	जे सी	13637	सुबेदार मेजर	मेजरा सिंह
238	जे सी	14070	सुबेदार मेजर	राजमान सिंह
239	जे सी	18325	सुबेदार मेजर	अनन्त सिंह
240	जे सी	30984	सुबेदार	बलवान सिंह
241	जे सी	33951	सुबेदार	चमेल सिंह
242	जे सी	15973	सुबेदार	चेत राम

243	जे सी	25935	सुबेदार	डेविड
244	जे सी	32138	सुबेदार	गनी खां
245	जे सी	31763	सुबेदार	गिरधारी लाल
246	जे सी	49263	सुबेदार	हेमराज
247	जे सी	25943	सुबेदार	जरनैल सिंह
248	जे सी	25929	सुबेदार	करतार सिंह
249	जे सी	45050	सुबेदार	करतार सिंह
250	जे सी	27820	सुबेदार	मोहन लाल
251	जे सी	25946	सुबेदार	नवांग सांगे
252	जे सी	25936	सुबेदार	फुनचोक नामगेल
253	जे सी	25937	सुबेदार	फुनचोक ताशी
254	जे सी	35222	सुबेदार	पियारे लाल
255	जे सी	25934	सुबेदार	सीनम जोखदान
256	जे सी	33609	सुबेदार	ताशी नूरबू

बी नागा रेजिमेंट

257	जे सी	39273	सुबेदार	राजेन्द्र सिंह
-----	-------	-------	---------	----------------

बी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफल्स

258	जे सी	73	सुबेदार	गुलाम कादिर वाफा, सेना मैडल
-----	-------	----	---------	--------------------------------

1 गोरखा राइफल्स

259	जे सी	21412	सुबेदार मेजर	दलीप सिंह थापा
260	जे सी	34427	सुबेदार मेजर	एम बहादुर गुरंग

3 गोरखा राइफल्स

261	जे सी	15645	सुबेदार मेजर	खरक सिंग गुरंग
-----	-------	-------	--------------	----------------

4 गोरखा राइफल्स

262	जे सी	17154	सुबेदार मेजर	सुन्दर सिंह गुरंग
-----	-------	-------	--------------	-------------------

5 गोरखा राइफल्स

263	जे सी	29687	सुबेदार मेजर	गजेन्द्रबहादुर चांद
264	जे सी	32215	सुबेदार मेजर	इन्द्राप्रसाद गुरंग
265	जे सी	39304	सुबेदार	दिलबहादुर गुरंग

8 गोरखा राइफल

266	जे सी	30991	सूबेदार मेजर	धनबहादुर गुरंग
267	जे सी	30457	सूबेदार मेजर	नंभूसिंग थापा
268	जे सी	51075	सूबेदार	बिरताप्रसाद गुरंग, सेना मैडल
269	जे सी	42292	सूबेदार	जसबहादुर पुन

9 गोरखा राइफल

270	जे सी	25586	सूबेदार मेजर	दीना नाथ कार्की
271	जे सी	18437	सूबेदार मेजर	मन दोज मल्ल
272	जे सी	17054	सूबेदार मेजर	मान सिंह थापा
273	जे सी	16553	सूबेदार मेजर	रन बहादुर बोहरा

11 गोरखा राइफल

274	जे सी	20752	सूबेदार मेजर	केशव सिंह राय
275	जे सी	23885	सूबेदार मेजर	मंजीत राय

भार्मी सर्विस कोर (सप्लाई)

276	जे सी	31920	सूबेदार मेजर	असादुल्लाह खान
277	45418	जे सी	सूबेदार मेजर	देव दत्त
278	जे सी	41042	सूबेदार मेजर	गुरुबक्श सिंह
279	जे सी	14132	सूबेदार मेजर	गुरुचरन सिंह
280	जे सी	28791	सूबेदार मेजर	प्रभात सिंह
281	जे सी	17906	सूबेदार मेजर	राम प्रकाश
282	जे सी	37016	सूबेदार	ब्रिज लाल
283	जे सी	30106	सूबेदार	पुष्पामोय बासू ठाकुर
284	जे सी	21979	सूबेदार	रमेश कुमार शर्मा

भार्मी सर्विस कोर (एनिमल ट्रान्सपोर्ट)

285	जे सी	19908	रिसालदार	वरन सिंह नेगी
286	जे सी	34927	रिसालदार	बासवा नंद कंडवाल
287	जे सी	17740	रिसालदार	बिजय सिंह
288	जे सी	34930	रिसालदार	बिजय सिंह खथेट
289	जे सी	19886	रिसालदार	बुध सिंह
290	जे सी	27621	रिसालदार	चन्दर सिंह नेगी
291	जे सी	34934	रिसालदार	दयाल सिंह
292	जे सी	19907	रिसालदार	गोपाल सिंह गुसाई
293	जे सी	34933	रिसालदार	हरी दत्त कुनियाल
294	जे सी	27620	रिसालदार	जसवंत सिंह

295	જે સો	19895	રિસાલદાર	કન્હૈયા લાલ
296	જે યો	27473	રિસાલદાર	કરતારા મસિહ
297	જે સો	27602	રિસાલદાર	શ્યામ સિંહ મંડારી
298	જે સો	35748	રિસાલદાર	મીર સિંહ સજવાન
299	જે યો	27469	રિસાલદાર	મોહિન્દર સિંહ
300	જે સો	15170	રિસાલદાર	પોતામ્બર દત્ત
301	જે સો	27467	રિસાલદાર	રામ પ્રશાદ
302	જે સો	17738	રિસાલદાર	સતીશ ચન્દ્ર શાંતોરિયા
303	જે સો	35749	રિસાલદાર	શિવ સિંહ રાવત

ગ્રામી સર્વિસ કોર (મેકેનિકલ ટ્રાંસ ટે)

304	જે સો	22198	સુબેદાર મેજર	હીરા લાલ
305	જે સો	21672	સુબેદાર મેજર	નલ્લી બેંકટારાવ
306	જે સો	21608	સુબેદાર મેજર	શમ્ભૂ પ્રસાદ
307	જે સો	42019	સુબેદાર	ભગવાન સિંહ
308	જે સો	43381	સુબેદાર	બુજાનમી મિશ્રા
309	જે સો	42644	સુબેદાર	દેવી દાસ
310	જે સો	43492	સુબેદાર	ગુરુચંન સિંહ
311	જે સો	43408	સુબેદાર	શ્રીમ સિંહ
312	જે સો	41822	સુબેદાર	સુલખન સિંહ ખાલોં
313	જે સો	43428	સુબેદાર	સુરજીત સિંહ

ગ્રામી મેડિકલ કોર

314	જે સો	22723	સુબેદાર મેજર	વાલી રામ
315	જે સો	22470	સુબેદાર મેજર	ભગવાન વાસ
316	જે સો	22714	સુબેદાર મેજર	દેવી દાસ
317	52133	જે સો	સુબેદાર મેજર	જે એન વૌધરી
318	જે સો	28139	સુબેદાર મેજર	કાલીપાડા વાસ
319	જે સો	26565	સુબેદાર મેજર	કેદાર નાથ
320	જે સો	22535	સુબેદાર મેજર	લેવેશ દીવાન
321	જે સો	22708	સુબેદાર મેજર	મોહમ્મદ ગની
322	જે સો	35977	સુબેદાર મેજર	રામ અધાર સિંહ
323	જે સો	22471	સુબેદાર મેજર	સુજાન સિંહ
324	જે સો	29526	સુબેદાર	મહાશીર પ્રસાદ ત્યાગી
325	જે સો	35142	સુબેદાર	રતન મની

ગ્રામી ઘાઈવેસ કોર

326	53184	જે સો	સુબેદાર મેજર	હેમ પ્રકાશ શર્મા
327	જે સો	13463	સુબેદાર મેજર	નરેશ ચન્દ્રા ગંગોલી

328	जे सी	12498	सूबेदार मेजर	रंधीर सिंह
329	जे सी	11975	सूबेदार मेजर	साधु सिंह
330	जे सी	23298	सूबेदार मेजर	शेर सिंह
331	जे सी	53119	सूबेदार मेजर	सुखदेव प्राशर
332	जे सी	41132	सूबेदार	आसाराम
333	जे सी	18105	सूबेदार	कन्हैया सिंह
334	जे सी	22042	सूबेदार	सोम नाथ

कोर आफ इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरस

335	जे सी	22278	सूबेदार मेजर	अनंत बहादुर सिंह
336	जे सी	22874	सूबेदार मेजर	बाबू धन थापा
337	जे सी	11916	सूबेदार मेजर	बख्तावर सिंह
338	जे सी	18671	सूबेदार मेजर	दलेल सिंह
339	जे सी	9360	सूबेदार मेजर	जी कृष्णा मूर्ध्नि
340	जे सी	16229	सूबेदार मेजर	हरमोपाल सिंह
341	जे सी	10024	सूबेदार मेजर	हरीहर सिंहा
342	जे सी	13370	सूबेदार मेजर	के जी कृष्णा पानीकर
343	जे सी	18672	सूबेदार मेजर	कमल चक्रवर्ती
344	जे सी	17769	सूबेदार मेजर	लुशान संतन फ्राडिज
345	जे सी	23753	सूबेदार मेजर	एम डी पाप्पेन
346	जे सी	3648	सूबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह
347	जे सी	12744	सूबेदार मेजर	मोहिन्दर पाल
348	जे सी	11914	सूबेदार मेजर	नेपोलियन डीसूजा
349	जे सी	18665	सूबेदार मेजर	पी सी कृष्णन
350	जे सी	19545	सूबेदार मेजर	पी जैड अम्ब्रोसे
351	जे सी	11940	सूबेदार मेजर	प्रेम नाथ
352	जे सी	12739	सूबेदार मेजर	प्रीतम दास
353	जे सी	11962	सूबेदार मेजर	शारी बिलास
354	जे सी	9364	सूबेदार मेजर	शिवाजी पांडे
355	जे सी	18679	सूबेदार मेजर	सुखदेव सिंह
356	जे सी	11963	सूबेदार मेजर	सुनील कुमार दास
357	जे सी	19553	सूबेदार मेजर	तग बहादुर सिंह
358	जे सी	16232	सूबेदार	तुलसी राम
359	जे सी	28372	सूबेदार	राज कृष्ण
360	जे सी	31142	सूबेदार	रत्न सिंह

रिमाऊंट बंटेरेनरी कोर

361	आर वी	7065	रिमालदार मेजर	द्वारिका नाथ रैना
-----	-------	------	---------------	-------------------

ग्रामों एंजलेशनल कोर

362	जे सी	13208	सुबेदार मेजर	अजीत सिंह
363	जे सी	12108	सुबेदार मेजर	बलराम दत्त
364	जे सी	4288	सुबेदार मेजर	हरेन्द्र प्रसाद गुरंग
365	जे सी	12875	सुबेदार मेजर	लेख राज सिंह वर्मा
366	जे सी	12879	सुबेदार मेजर	ओसफ साईमन
367	जे सी	12870	सुबेदार मेजर	पी ए चाको
368	जे सी	12115	सुबेदार मेजर	सरदार सिंह काम्बो
369	जे सी	27990	सुबेदार	दीप चंद
370	जे सी	31168	सुबेदार	कृष्ण दत्त
371	जे सी	19442	सुबेदार	रंधीर सिंह मलिक

दी इंटेलिजेंस कोर

372	जे सी	11695	सुबेदार मेजर	बी ए परब
373	जे सी	17215	सुबेदार मेजर	चक्रपाल सिंह
374	जे सी	25962	सुबेदार	जगदीश कुमार
375	जे सी	23899	सुबेदार	जय गोपाल सिंह
376	जे सी	24906	सुबेदार	नामसिंह कुरबान

कोर आफ मिसिलरी पुलिस

377	जे सी	16532	सुबेदार मेजर	जसवंत सिंह
378	जे सी	17143	सुबेदार मेजर	नत्थू सिंह
379	जे सी	15357	सुबेदार मेजर	प्रताप सिंह
380	जे सी	28433	सुबेदार	फागु राम
381	जे सी	28418	सुबेदार	रधु नंदन प्रसाद गिरि
382	जे सी	28431	सुबेदार	उपेन्द्रा चन्द्रा

दी पाइनियर कोर

383	जे सी	11811	सुबेदार मेजर	अब्दुल रशीद
384	जे सी	11996	सुबेदार मेजर	सत्य पाल सिंह चौहान
385	जे सी	32001	सुबेदार	उधम सिंह

डिफेंस सिग्युरिटी कोर

386	37464	जे सी	सुबेदार मेजर	मनोहर लाल चोपड़ा
387	52060	जे सी	सुबेदार मेजर	शेर सिंह

MINISTRY OF DEFENCE

(Army Branch)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th January 1976

No. 2-E, dated 22nd January 1976.—The President is pleased to grant honorary commissions to the undermentioned JCOs on active list under Para 178 of the Regulations for the Army, 1962, with effect from 26 Jan. 1976.

To be Honorary Captains**9 HORSE**

1 JC 12908	Ris Maj & Hony Lt	PARKASH SINGH
------------	-------------------	---------------

61 CAVALRY

2 JC 546	Ris Maj & Hony Lt	S SANJIVARAJ URS
----------	-------------------	------------------

64 CAVALRY

3 JC 12582	Ris Maj & Hony Lt	MANPHUL SINGH
------------	-------------------	---------------

REGIMENT OF ARTILLERY

4 JC 8485	Sub Maj & Hony Lt	JOGINDER SINGH
5 JC 9682	Sub Maj & Hony Lt	M BALAKRISHNAN NAIR
6 JC 9009	Sub Maj & Hony Lt	MANOHER LAL
7 JC 9011	Sub Maj & Hony Lt	OMKAR SINGH
8 JC 14363	Sub Maj & Hony Lt	PHUSU SINGH

MADRAS ENGINEER GROUP

9 JC 12819	Sub Maj & Hony Lt	S ABDUL MAJEETH
10 JC 16415	Sub Maj & Hony Lt	SAMPANGIRAJ

BENGAL ENGINEER GROUP

11 JC 10194	Sub Maj & Hony Lt	ANAND SINGH
12 JC 10197	Sub Maj & Hony Lt	JAYA NAND BARTHWAL
13 JC 12294	Sub Maj & Hony Lt	KARTAR SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

14 JC 10769	Sub Maj & Hony Lt	GURDIP SINGH
15 JC 10772	Sub Maj & Hony Lt	RAM KARAN SINGH

CORPS OF SIGNALS

16 JC 16881	Sub Maj & Hony Lt	BACHITTAR
17 JC 11389	Sub Maj & Hony Lt	HARCHAND SINGH
18 JC 18142	Sub Maj & Hony Lt	KEHAR SINGH
19 JC 12813	Sub Maj & Hony Lt	V MADHAVAN NAIR

THE PUNJAB REGIMENT

20 JC 24413	Sub Maj & Hony Lt	JAISI RAM
-------------	-------------------	-----------

THE MADRAS REGIMENT

21 JC 6335	Sub Maj & Hony Lt	NARAYANA PILLAI
22 JC 6334	Sub Maj & Hony Lt	P VELAYUDHAN NAIR
23 JC 13505	Sub Maj & Hony Lt	R ARUMUGHAM
24 JC 9903	Sub Maj & Hony Lt	V BALAKRISHNAN NAIR

THE GRENADIERS

25 JC 12135	Sub Maj & Hony Lt	INAYAT ALI KHAN, VSM
-------------	-------------------	----------------------

THE RAJPUTANA RIFLES

26 JC 8200	Sub Maj & Hony Lt	KESHIARI SINGH
27 JC 13802	Sub Maj & Hony Lt	MANGE RAM
28 JC 7555	Sub Maj & Hony Lt	SAITAN SINGH
29 JC 16001	Sub Maj & Hony Lt	VISHWA MITTAR

THE RAJPUT REGIMENT

30	JC 11057	Sub Maj & Hony Lt	OM PRAKASH SINGH
----	----------	-------------------	------------------

THE JAT REGIMENT

31	JC 8695	Sub Maj & Hony Lt	HOSHIAR SINGH
32	JC 37544	Sub & Hony Lt	RAM SINGH

THE SIKH REGIMENT

33	JC 16617	Sub Maj & Hony Lt	JASWANT SINGH
34	JC 13541	Sub Maj & Hony Lt	PARKASH SINGH
35	JC 10387	Sub Maj & Hony Lt	PIARA SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

36	JC 9759 P	Sub Maj & Hony Lt	BUDH SINGH
----	-----------	-------------------	------------

THE DOGRA REGIMENT

37	JC 6169	Sub Maj & Hony Lt	JAGAN NATH
38	JC 24128	Sub Maj & Hony Lt	KOR SINGH
39	JC 10050	Sub Maj & Hony Lt	RATTAN CHAND

THE GARHWAL RIFLES

40	JC 12098	Sub Maj & Hony Lt	BHAWANI SINGH NEGI
41	JC 12238	Sub Maj & Hony Lt	DARSHAN SINGH NEGI

THE KUMAON REGIMENT

42	JC 17131	Sub & Hony Lt	RAM CHANDER, Vrc
----	----------	---------------	------------------

THE ASSAM REGIMENT

43	JC 12454	Sub Maj & Hony Lt	TEMJENMERANG AO
----	----------	-------------------	-----------------

THE BIHAR REGIMENT

44	JC 12254	Sub Maj & Hony Lt	CHARLES KISKU
45	JC 12253	Sub Maj & Hony Lt	MUNSHI KUAR
46	JC 9454	Sub Maj & Hony Lt	RAM NATH PANDEY
47	JC 15244	Sub Maj & Hony Lt	SHIOPAL SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES AND LADAKH SCOUTS

48	JC 16675	Sub Maj & Hony Lt	SADHU SINGH
49	JC 32137	Sub & Hony Lt	JANAK SINGH
50	JC 25939	Sub & Hony Lt	KANSHI RAM

THE JAMMU AND KASHMIR MILITIA

51	JC 50	Sub & Hony Lt	KIRTAN SINGH
----	-------	---------------	--------------

5 GORKHA RIFLES

52	JC 19830	Sub Maj & Hony Lt	NARBAHADUR GURUNG
----	----------	-------------------	-------------------

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

53	JC 12390	Ris Maj & Hony Lt	RAGHBIR SINGH
54	JC 19888	Ris & Hony Lt	DULI CHAND
55	JC 27466	Ris & Hony Lt	GHANSHYAM SINGH BISHT
56	JC 19906	Ris & Hony Lt	PRABHAKARAN PILLAY
57	JC 17974	Ris & Hony Lt	RANJIT SINGH
58	JC 19859	Ris & Hony Lt	TAJWAR SINGH BHANDARI

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

59	JC 36953	Sub Maj & Hony Lt	GIANI RAM
60	JC 24631	Sub Maj & Hony Lt	KC CHELLAPPAN

ARMY MEDICAL CORPS

61	JC 22696	Sub Maj & Hony Lt	RAM KISHORE
62	JC 22700	Sub Maj & Hony Lt	RAM SINGH
63	JC 22694	Sub Maj & Hony Lt	SACHIDANAND
64	JC 22705	Sub Maj & Hony Lt	VIDYA SAGAR

ARMY ORDNANCE CORPS

65	45898 JC	Sub Maj & Hony Lt	AK BALAKRISHNAN
66	48979 JC	Sub Maj & Hony Lt	NAM CHAND BHATIA
67	55902 JC	Sub Maj & Hony Lt	PK MADHAVA MENON
68	48992 JC	Sub Maj & Hony Lt	RAMENDRA MOHAN CHOUDHURY

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

69	JC 19394	Sub Maj & Hony Lt	CHARAN SINGH
70	JC 3851	Sub Maj & Hony Lt	KALIPADA BHATTACHARJEE
71	JC 3715	Sub Maj & Hony Lt	LAHIT BISWAS
72	JC 3670	Sub Maj & Hony Lt	M GOPALA KRISHNAN
73	JC 8934	Sub Maj & Hony Lt	MD BHASKAR
74	JC 3698	Sub Maj & Hony Lt	SUBHENDRA LALL MAITRA
75	JC 8518	Sub Maj & Hony Lt	SUNDER SINGH
76	JC 3649	Sub Maj & Hony Lt	VED PRAKASH SOBTI

ARMY EDUCATIONAL CORPS

77	JC 4260	Sub Maj & Hony Lt	KADEMADA KARIAPPA
78	JC 12873	Sub Maj & Hony Lt	TOTA SINGH RAWAT

PIONEER CORPS

79	JC 13731	Sub Maj & Hony Lt	CHINNAPPA RAJ
80	JC 11823	Sub Maj & Hony Lt	PAN SINGH

DEFENCE SECURITY CORPS

81	40459 JC	Sub Maj & Hony Lt	CS NAIR
----	----------	-------------------	---------

To be Honorary Lieutenants

7 CAVALRY

1	JC 15790	Ris Maj	GIRDHARI LAL
2	JC 12210	Ris Maj	HARJINDAR SINGH

THE CENTRAL INDIA HORSE

3	JC 12042	Ris Maj	KARAM SINGH
---	----------	---------	-------------

61 CAVALRY

4	JC 547	Ris Maj	NARAYAN RAO SINDEY
---	--------	---------	--------------------

REGIMENT OF ARTILLERY

5	JC 10815	Sub Maj	A KRISHNAN NAIR
6	JC 13061	Sub Maj	BHAGIRATH SINGH
7	JC 11426	Sub Maj	G ANANDA RAO
8	JC 9600	Sub Maj	HARDWARI LAL YADAV
9	JC 14367	Sub Maj	KHINW SINGH
10	JC 12079	Sub Maj	M KESAVAN NAIR
11	JC 14393	Sub Maj	MAWASI
12	JC 9686	Sub Maj	N RAJAGOPALAN NAIR
13	JC 9678	Sub Maj	PG JOYAPPA
14	JC 27057	Sub Maj	PARBRAHAM SINGH
15	JC 9264	Sub Maj	RAM CHANDER
16	JC 12564	Sub Maj	RAM LAL
17	JC 15434	Sub Maj	RAM PARKASH
18	JC 12541	Sub Maj	RANJIT SINGH
19	JC 10621	Sub Maj	SOHAN SINGH
20	JC 9673	Sub Maj	THANGAPPA
21	JC 17416	Sub	ARJAN SINGH
22	JC 30190	Sub	BANWARI LAL
23	JC 24249	Sub	BAPU JADHAV
24	JC 32789	Sub	BHAG SINGH
25	JC 30328	Sub	BHUP SINGH
26	JC 40253	Sub	BISHAL SINGH
27	JC 32249	Sub	CHARAN SINGH
28	JC 25843	Sub	DALIP SINGH
29	JC 33302	Sub	DHIAN SINGH

30	JC 17392	Sub	GEORGE NS
31	JC 18890	Sub	GURBAX SINGH
32	JC 25821	Sub	HARBANS SINGH
33	JC 30200	Sub	HARBANS SINGH
34	JC 33315	Sub	JAGIR SINGH
35	JC 25815	Sub	KARTAR SINGH
36	JC 24263	Sub	L. KRISHNAN
37	JC 34647	Sub	MAKHAN SINGH
38	JC 33425	Sub	MANGAL SINGH
39	JC 17405	Sub	NAZAR SINGH
40	JC 24282	Sub	PG MADIIVAN
41	JC 18889	Sub	SARUP SINGH
42	JC 45498	Sub	TUKARAM MASKE

MADRAS ENGINEER GROUP

43	JC 17137	Sub Maj	A. MANAKAVU
44	JC 13219	Sub Maj	K KANNAN
45	JC 13229	Sub Maj	KV PRABHAKARA PANIKAR
46	JC 19373	Sub Maj	MS SRINIVASAN
47	JC 13221	Sub Maj	P RAMACHANDRA RAO
48	JC 13230	Sub Maj	RAMAKRISHNAN NAIR
49	JC 17138	Sub Maj	TK CHANDRASEKARAN NAIR

BENGAL ENGINEER GROUP

50	JC 20842	Sub Maj	ANEK SINGH
51	JC 13326	Sub Maj	CHANDI PARSHAD
52	JC 12995	Sub Maj	DAYA NAND
53	JC 26808	Sub Maj	DAYAL SINGH
54	JC 11627	Sub Maj	DHARAM SINGH
55	JC 12979	Sub Maj	PRITAM SINGH
56	JC 12998	Sub Maj	RAMA NAND SINGH
57	JC 10718	Sub Maj	SURENDAR SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

58	JC 13921	Sub Maj	AMAR SINGH
59	JC 13677	Sub Maj	GURDIAL SINGH
60	JC 13771	Sub Maj	DATTATRAY GARUD
61	JC 13916	Sub Maj	SHAMRAO JAGTAP
62	JC 13712	Sub Maj	SHANKAR KALE
63	JC 13713	Sub Maj	SITARAM LAWAND
64	JC 9718	Sub Maj	TULSI RAM
65	JC 34480	Sub	PREM SINGH
66	JC 31840	Sub	SARWAN SINGH

CORPS OF SIGNALS

67	JC 16889	Sub Maj	AMIN CHAND
68	JC 27327	Sub Maj	CO CHERIAN
69	JC 12768	Sub Maj	SRI RAM
70	JC 42074	Sub	DHARAM PAUL
71	JC 42031	Sub	MEHTAB SINGH, SM
72	JC 29422	Sub	PJ THOMAS
73	JC 30254	Sub	PK MADHAVAN NAIR

BRIGADE OF THE GUARDS

74	JC 21117	Sub Maj	AD RAM
75	JC 15044	Sub Maj	MAN SINGH
76	JC 29662	Sub	JAIWANT SINGH
77	JC 41082	Sub	PITAMBAR DATT PATHAK
78	JC 46185	Sub	PREM SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

79	JC 16563	Sub Maj	HAR SINGH
80	JC 24397	Sub Maj	SHANKAR SINGH
81	JC 36512	Sub	SHIV CHAND

THE PUNJAB REGIMENT

82	JC 9768	Sub Maj	BHAG SINGH
83	JC 16435	Sub Maj	SHIRI CHAND
84	JC 30372	Sub	GIAN CHAND
85	JC 38223	Sub	GURBUX SINGH. AC, SM
86	JC 32344	Sub	HARI SINGH
87	JC 33205	Sub	MUBHAR CHAND
88	JC 33175	Sub	SOWINDER SINGH
89	JC 35016	Sub	TILAK RAJ

THE MADRAS REGIMENT

90	JC 10284	Sub Maj	K NATARAJAN
91	JC 14635	Sub Maj	K K NAIR
92	JC 8729	Sub Maj	SHANKAR RAO KESARKAR
93	JC 13979	Sub	S CHELLAIAH
94	JC 38655	Sub	SKS MANTI

THE GRENADIERS

95	JC 12137	Sub Maj	ASGHAR KHAN
96	JC 16777	Sub Maj	GORDHAN SINGH
97	JC 12133	Sub Maj	PADAM DEV SINGH
98	JC 16746	Sub Maj	YASIN KHAN
99	JC 33112	Sub	BHAWANI SINGH
100	JC 23282	Sub	DURGA DASS
101	JC 11990	Sub	KARAM SINGH
102	JC 16748	Sub	MANWAR
103	JC 27723	Sub	RAHEEM KHAN
104	JC 33815	Sub	SHIVE NARAIN

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

105	JC 12858	Sub Maj	HARI BANDEKAR
106	JC 33775	Sub	BHAGEL SINGH
107	JC 36456	Sub	BH. GWAN SHINDE
108	JC 16809	Sub	KRISHNA POWAR
109	JC 33777	Sub	NARAYAN SASTE
110	JC 26576	Sub	NARAYAN SHELKE
111	JC 35287	Sub	PANDURANG MORE
112	JC 36461	Sub	SAMBHAR SAJVI
113	JC 28414	Sub	TUKARAM RAUT

THE RAJPUTANA RIFLES

114	JC 6718	Sub Maj	BANFY SINGH
115	JC 18020	Sub Maj	BHANWAR SINGH
116	JC 21770	Sub	BHARAT SINGH
117	JC 18034	Sub	BHOPAL SINGH
118	JC 12349	Sub	DALIP SINGH
119	JC 35269	Sub	DUL SINGH
120	JC 16463	Sub	MUNSHI SINGH
121	JC 38243	Sub	RAMSARUP RAM

THE RAJPUT REGIMENT

122	JC 19252	Sub Maj	BABU LAL SINGH
123	JC 14668	Sub Maj	DEBI SAHAI
124	JC 17708	Sub Maj	PRABHU SINGH
125	JC 15352	Sub Maj	RIDDH SINGH
126	JC 20573	Sub Maj	SATAN KANWAR SINGH
127	JC 17703	Sub Maj	SAYAR SINGH
128	JC 41894	Sub	BIHANWAR SINGH
129	JC 30966	Sub	GAD SINGH
130	JC 39917	Sub	JAGAN NATH
131	JC 23257	Sub	PANE SINGH
132	JC 26102	Sub	RAJDEO SINGH
133	JC 24037	Sub	RAM DULAR SINGH
134	JC 31991	Sub	RAM PHOOL RAM
135	JC 36200	Sub	RAM PRASAD DUBEY
136	JC 36906	Sub	RAM SINGHASIAN SINGH
137	JC 35162	Sub	SC SHARMA
138	JC 26103	Sub	SADUL SINGH
139	JC 28244	Sub	SUCHAITA NAND SINGH

THE JAT REGIMENT

140	JC 12353	Sub Maj	BAL RAM
141	JC 16740	Sub Maj	DALIP SINGH
142	JC 11561	Sub Maj	HUSHIARA SINGH
143	JC 14294	Sub Maj	KARAN SINGH
144	JC 16178	Sub Maj	RAM KANWAR
145	JC 12632	Sub Maj	RAM SARUP
146	JC 11978	Sub Maj	RANGI RAM
147	JC 12168	Sub Maj	SULTAN SINGH, SM
148	JC 35056	Sub	CHANDER BHAN
149	JC 18394	Sub	DIWAN SINGH
150	JC 30557	Sub	PAHLAD SINGH, V.C.
151	JC 33786	Sub	RAM DATT
152	JC 36251	Sub	RICHH PAL
153	JC 37775	Sub	RUP CHAND
154	JC 35052	Sub	SURAJ BHAN
155	JC 35065	Sub	UMRAO SINGH
156	JC 42285	Sub	ZILE SINGH

THE SIKH REGIMENT

157	JC 14659	Sub Maj	DALIP SINGH
158	JC 15143	Sub Maj	HARBANS SINGH
159	JC 15139	Sub Maj	JAGIR SINGH
160	JC 16029	Sub Maj	MOHAN SINGH
161	JC 30617	Sub	GANGA SINGH
162	JC 31212	Sub	JOGA SINGH
163	JC 16021	Sub	JOGINDER SINGH
164	JC 35604	Sub	KARTAR SINGH
165	JC 17934	Sub	KARTAR SINGH
166	JC 18077	Sub	MANGAT SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

167	JC 28988F	Sub Maj	INDAR SINGH
168	JC 13298N	Sub Maj	KARAM SINGH
169	JC 14516N	Sub Maj	LAHMBER SINGH
170	JC 15724P	Sub Maj	UDHAM SINGH
171	JC 38608Y	Sub	DALIP SINGH
172	JC 12146A	Sub	HARMAIL SINGH
173	JC 27701A	Sub	HAZURA SINGH
174	JC 16497M	Sub	KARTAR SINGH
175	JC 35032F	Sub	MUKHTIAR SINGH
176	JC 38615P	Sub	RAM SINGH

THE DOGRA REGIMENT

177	JC 16080	Sub Maj	HEM SINGH GULERIA
178	JC 12122	Sub Maj	KANSHI RAM
179	JC 12121	Sub Maj	SHAMSHER SINGH
180	JC 33591	Sub	DHANI CHAND
181	JC 34260	Sub	GIAN CHAND
182	JC 39142	Sub	NANAK CHAND
183	JC 33438	Sub	RAGHBIR SINGH

THE GARHWAL RIFLES

184	JC 16379	Sub Maj	BHAWAN SINGH BISHT
185	JC 16381	Sub Maj	GANGA SINGH KUNWAR
186	JC 17953	Sub Maj	KIRPAL SINGH NEGI
187	JC 11352	Sub Maj	MADAN SINGH RINGWALA
188	JC 15218	Sub Maj	UMRAO SINGH NEGI
189	JC 32897	Sub	BARMA NAND NAUGAIN
190	JC 34522	Sub	MAHABIR PRASHAD NAI- THANI
191	JC 32233	Sub	PIRTHBI SINGH RAWAT
192	JC 44566	Sub	RAGHUBIR SINGH RAWAT

THE KUMAON REGIMENT

193	JC 15234	Sub Maj	BISHAN SINGH
194	JC 21110	Sub Maj	CHANDGI
195	JC 16358	Sub Maj	JAYANT SINGH
196	JC 9023	Sub Maj	KESHAV SINGH
197	JC 10530	Sub Maj	YADUNATH SINGH
198	JC 37535	Sub	AN SINGH
199	JC 37031	Sub	AN SINGH
200	JC 31326	Sub	ABHAJ SINGH
201	JC 35001	Sub	BADLOO RAM
202	JC 48941	Sub	BALA DATT
203	JC 41088	Sub	BHAWANI DATT
204	JC 35407	Sub	BIS RAM
205	JC 38569	Sub	CHANCHAL SINGH
206	JC 23008	Sub	DAMODAR
207	JC 28840	Sub	DEBI SINGH
208	JC 39459	Sub	GAMBHIR SINGH
209	JC 18193	Sub	GIRDHARI LAL
210	JC 39457	Sub	GOPAL DATT
211	JC 36143	Sub	KALYAN SINGH
212	JC 31330	Sub	KANHI RAM
213	JC 39318	Sub	KESHAR SINGH
214	JC 39822	Sub	MADHAWA NAND
215	JC 31329	Sub	MOHAN SINGH
216	JC 21104	Sub	NARAIN DATT
217	JC 36885	Sub	NARPAT SINGH
218	JC 41087	Sub	PARTAP SINGH
219	JC 37713	Sub	PUSKAR SINGH
220	JC 49337	Sub	RAM SINGH
221	JC 42757	Sub	SHEOTAJ SINGH
222	JC 20580	Sub	SRI RAM
223	JC 17133	Sub	SUKHI RAM
224	JC 35003	Sub	TEK CHAND

THE ASSAM REGIMENT

225	JC 17698	Sub Maj	JABHUNGA
226	JC 12441	Sub Maj	LALCHHUNGA
227	JC 24842	Sub	BOLORAM BHUYAN
228	JC 25653	Sub	MICKEY DYKES

THE MAHAR REGIMENT

229	JC 10375	Sub Maj	CHAIN SINGH
230	JC 11988	Sub Maj	RAM CHANDRA GAIKWAD
231	JC 10760	Sub Maj	SARWAN SINGH
232	JC 39276	Sub	DAN SINGH
233	JC 14761	Sub	GURBACHAN SINGH
234	JC 25553	Sub	THANDU RAM

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES AND LADAKH SCOUTS

235	JC 14152	Sub Maj	BAL BHADUR SINGH
236	JC 15195	Sub Maj	JANAK SINGH
237	JC 13637	Sub Maj	MEJRA SINGH
238	JC 14070	Sub Maj	RAJMAN SINGH
239	JC 18325	Sub	ANANT
240	JC 30984	Sub	BALW.
241	JC 33951	Sub	CHAI
242	JC 15973	Sub	CHI
243	JC 25935	Sub	D'A
244	JC 32138	Sub	G
245	JC 31763	Sub	
246	JC 49263	Sub	
247	JC 25943	Sub	
248	JC 25929	Sub	
249	JC 45050	Sub	
250	JC 27820	Sub	
251	JC 25946	Sub	
252	JC 25936	Sub	
253	JC 25937	Sub	
254	JC 35222	Sub	
255	JC 25934	Sub	
256	JC 33609	Sub	

THE NAGA REGIMENT

257 JC 39273	Sub	RAJENDRA SINGH
--------------	-----	----------------

THE JAMMU AND KASHMIR MILITIA

258 JC 73	Sub	GHULAM KADIR WAFI, SM
-----------	-----	-----------------------

1 GORKHA RIFLES

259 JC 21412	Sub Maj	DALIP SINGH THAPA
260 JC 34427	Sub Maj	EM BAHADUR GURUNG

3 GORKHA RIFLES

261 JC 15645	Sub Maj	KHARAK SING GURUNG
--------------	---------	--------------------

4 GORKHA RIFLES

262 JC 17154	Sub Maj	SUNDAR SINGH GURUNG
--------------	---------	---------------------

5 GORKHA RIFLES

263 JC 29687	Sub Maj	GAJENDRABAHADUR CHAND
264 JC 32215	Sub Maj	INDRAPARSAD GURUNG
265 JC 39304	Sub	DILBAHADUR, GURUNG

8 GORKHA RIFLES

266 JC 30991	Sub Maj	DHANBAHADUR GURUNG
267 JC 30457	Sub Maj	NANDUSING THAPA
268 JC 51075	Sub	BIRTA PARSAD GURUNG, SM
269 JC 42292	Sub	JASBAHADUR PUN

9 GORKHA RIFLES

270 JC 25586	Sub Maj	DINA NATH KARKI
271 JC 18437	Sub Maj	MAN DHOJ MALL
272 JC 17054	Sub Maj	MAN SINGH THAPA
273 JC 16553	Sub Maj	RAN BAHADUR BOHRA

11 GORKHA RIFLES

274 JC 20752	Sub Maj	KESHAP SINGH RAI
275 JC 23885	Sub Maj	MANJIT RAI

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

276 JC 31920	Sub Maj	ASADULLAH KHAN
277 45418 JC	Sub Maj	DEV DUT
278 JC 41042	Sub Maj	GURBAX SINGH
279 JC 14132	Sub Maj	GURCHARAN SINGH
280 JC 28791	Sub Maj	PARBHAT SINGH
281 JC 17906	Sub Maj	RAM PARKASH
282 JC 37016	Sub	BIRJ LAL
283 JC 30106	Sub	PUSHPAMOY BASU THAKUR
284 JC 21979	Sub	RAMESH KUMAR SHARMA

CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

RIS	BARAN SINGH NEGI
RIS	BASBA NAND KANDWAL
RIS	BIJAI SINGH
RIS	BIJAYA SINGH KHTHAIT
RIS	BUDH SINGH
RIS	CHANDAR SINGH NEGI
RIS	DAYAL SINGH
RIS	GOPAL SINGH GUSAIN
RIS	HARI DATT KUNYAL
RIS	JASWANT SINGH
RIS	KANHATA LAL
RIS	KARTARA MASIH
RIS	KHYAT SINGH BHANDARI
RIS	MER SINGH SAJWAN
RIS	MOHINDAR SINGH
RIS	PITAMBAR DATT
RIS	RAM PARSHAD
RIS	SATISH CHANDER
RIS	SHANTOURIYA
RIS	SHIB SINGH RAWAT

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

304	JC 22198	Sub Maj	HIRA LAL
305	JC 21672	Sub Maj	NALLI VENKATA RAO
306	JC 21658	Sub Maj	SHAMBHU PARSAD
307	JC 42019	Sub	BLIAGWAN SINGH
308	JC 43381	Sub	BUTANMI MISRA
309	JC 42644	Sub	DEVI DASS
310	JC 43492	Sub	GURDACHAN SINGH
311	JC 43408	Sub	OM SINGH
312	JC 41822	Sub	SULAKHAN SINGH KAILON
313	JC 43428	Sub	SURJIT SINGH

ARMY MEDICAL CORPS

314	JC 22723	Sub Maj	BAJI RAM
315	JC 22470	Sub Maj	BLIAGWAN DASS
316	JC 22714	Sub Maj	DEVI DATT
317	52133 JC	Sub Maj	JN CHOUDHURY
318	JC 28139	Sub Maj	KALIPADA DASS
319	JC 26565	Sub Maj	KEDAR NATH
320	JC 22535	Sub Maj	LEVESH DEWAN
321	JC 22708	Sub Maj	MOHD GANI
322	JC 35977	Sub Maj	RAM ADHAR SINGH
323	JC 22471	Sub Maj	SUJAN SINGH
324	JC 29526	Sub	MAHABIR PRASAD TYAGI
325	JC 35142	Sub	RATAN MANT

ARMY ORDNANCE CORPS

326	53184 JC	Sub Maj	HEM PRAKASH SHARMA
327	JC 13463	Sub Maj	NARESH CHANDRA GANGULY
328	JC 12498	Sub Maj	RANDHIR SINGH
329	JC 11975	Sub Maj	SADHU SINGH
330	JC 23298	Sub Maj	SHER SINGH
331	53119 JC	Sub Maj	SUKHDEV PRASAD
332	JC 41132	Sub	ASARAM
333	JC 18105	Sub	KANAHYA SINGH
334	JC 22042	Sub	SOM NATH

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

335	JC 22278	Sub Maj	ANANT BAHADUR SINGH
336	JC 22874	Sub Maj	BABU DHAN THAPA
337	JC 11916	Sub Maj	BAKHTWAR SINGH
338	JC 18671	Sub Maj	DALEL SINGH
339	JC 9360	Sub Maj	G KRISHNA MURTHY
340	JC 16229	Sub Maj	HARGOPAL SINGH
341	JC 10024	Sub Maj	HARIHAR SINGHA
342	JC 13370	Sub Maj	KG KRISHNA PANIKAR
343	JC 18672	Sub Maj	KAMAL CHAKRAVARTY
344	JC 17769	Sub Maj	LUSHAN SANTAN FERNANDEZ
345	JC 23753	Sub Maj	MD PAPPEN
346	JC 3648	Sub Maj	MOHINDAR SINGH
347	JC 12744	Sub Maj	MOHINDER PAL

348	JC 11914	Sub Maj	NAPOLEAN D'SOUZA
349	JC 18665	Sub Maj	PC KRISHNAN
350	JC 19545	Sub Maj	PZ AMBROSE
351	JC 11940	Sub Maj	PREM NATH
352	JC 12739	Sub Maj	PRITAM DASS
353	JC 11962	Sub Maj	SHARI BILAS
354	JC 9364	Sub Maj	SHIVAJI PANDEY
355	JC 18679	Sub Maj	SUKHDEO SINGH
356	JC 11963	Sub Maj	SUNIL KUMAR DASS
357	JC 19553	Sub Maj	TAGH BAHADUR SINGH
358	JC 16232	Sub Maj	TULSI RAM
359	JC 28372	Sub	RAJ KRISHAN
360	JC 31142	Sub	RATTAN SINGH

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

361	RV 7065	Ris Maj	DWARIKA NATH RAINA
-----	---------	---------	--------------------

ARMY EDUCATIONAL CORPS

362	JC 13208	Sub Maj	AJIT SINGH
363	JC 12108	Sub Maj	BALRAM DATT
364	JC 4288	Sub Maj	HARENDRA PRASAD GURUNG
365	JC 12875	Sub Maj	LEKH RAJ SINGH VERMA
366	JC 12879	Sub Maj	OUSEPH SIMON
367	JC 12870	Sub Maj	PA CHACKO
368	JC 12115	Sub Maj	SARDARA SINGH KAMBO
369	JC 27990	Sub	DEEP CHAND
370	JC 31168	Sub	KRISHAN DATT
371	JC 19442	Sub	RANDHIR SINGH MALIK

THE INTELLIGENCE CORPS

372	JC 11695	Sub Maj	BA PARAB
373	JC 17215	Sub Maj	CHAKARPAL SINGH
374	JC 25962	Sub	JAGDISH KUMAR
375	JC 23899	Sub	JAI GOPAL SINGH
376	JC 24906	Sub	NAMA SINGH QURBAN

CORPS OF MILITARY POLICE

377	JC 16532	Sub Maj	JASWANT SINGH
378	JC 17143	Sub Maj	NATHU SINGH
379	JC 15357	Sub Maj	PRATAP SINGH
380	JC 28433	Sub	PHAGU RAM
381	JC 28418	Sub	RAGHU NANDAN PRASAD GIRI
382	JC 28431	Sub	UPENDRA CHANDRA

PIONEER CORPS

383	JC 11811	Sub Maj	ABDUL RASHID
384	JC 11996	Sub Maj	SATYA PAL SINGH CHAUHAN
385	JC 32001	Sub	UDHAM SINGH

DEFENCE SECURITY CORPS

386	37464 JC	Sub Maj	MANOHAR LAL CHOPRA
387	52060 JC	Sub Maj	SHER SINGH

सं० 3-ई. विनांक 22 जनवरी 1976.—राष्ट्रपति सहर्ष गणपन्न दिवस (26 जनवरी, 1976) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी प्रोज को उनके अवकाश ग्रहण करने पर मेता विनियमबली 1962 के पैरा 180 के अधीन अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :—

अवैतनिक कंटेंट के रैंक में

7 क्वलरी

1 जे सी 13351	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करम सिंह
---------------	----------------------------------	----------

8 क्वलरी

2 जे सी 18118	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करतार सिंह
---------------	----------------------------------	------------

9 हार्स

3 जे सी 38368	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ब्रह्मा नन्द, बीर चक्र
---------------	---------------------------------------	------------------------

66 कवचित रेजिमेंट

4 जे सी 32813	रिसालदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सिंह
---------------	----------------------------------	----------

कवचित कोर

5 जे सी 23365]	रिसालदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोपी चन्द यादव
----------------	---------------------------------------	----------------

सोपखाना रेजिमेंट

6 जे सी 15417	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हुनी चन्द
7 जे सी 9667	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जोसफ
8 जे सी 11594	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरजीत सिंह
9 जे सी 41331	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अंकुश सावन्त
10 जे सी 29033	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चन्द्र कान्से
11 जे सी 25841	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ध्यान सिंह
12 जे सी 40294	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	इन्द्र सिंह
13 जे सी 32791	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मनोहर लाल
14 जे सी 44295	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राजा राम इतापे
15 जे सी 17324	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम किसन
16 जे सी 33429	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरन सिंह बेन्स
17 जे सी 40225	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तुका राम पोवार

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

18	जे सी	10421	सूबेदार मेजर व अवैतनिक के सावीरानरायना लैफ्टिनेंट
19	जे सी	12345	सूबेदार मेजर व अवैतनिक नृपेन्द्र चन्द्र चन्दा लैफ्टिनेंट
20	जे सी	39220	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट ए. के. सवन

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

21	जे सी	23370	सूबेदार मेजर व अवैतनिक ए. एम. जार्ज लैफ्टिनेंट
22	जे सी	17175	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सी. अन्थोनी क्रुज लैफ्टिनेंट
23	जे सी	15940	सूबेदार मेजर व अवैतनिक देव नन्दन सिंह लैफ्टिनेंट
24	जे पी	9245	सूबेदार मेजर व अवैतनिक गणेश दत्त लैफ्टिनेंट
25	जे सी	10192	सूबेदार मेजर व अवैतनिक जगदीप सिंह लैफ्टिनेंट
26	जे सी	28265	सूबेदार मेजर व अवैतनिक के. अप्पुकुट्टन लैफ्टिनेंट
27	जे सी	18372	सूबेदार मेजर व अवैतनिक के. ई. जोसफ लैफ्टिनेंट
28	जे सी	12607	सूबेदार मेजर व अवैतनिक पान सिंह लैफ्टिनेंट
29	जे सी	15887	सूबेदार मेजर व अवैतनिक एस. शिवा रमन लैफ्टिनेंट
30	जे सी	9248	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सन्तोष सिंह लैफ्टिनेंट
31	जे सी	11125	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सतपाल सेठी लैफ्टिनेंट
32	जे सी	23373	सूबेदार मेजर व अवैतनिक सूबेदार सिंह लैफ्टिनेंट
33	जे सी	12301	सूबेदार मेजर व अवैतनिक तरलोक नाथ लैफ्टिनेंट

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

34	जे सी	11338	सूबेदार मेजर व अवैतनिक नरायण ढोण्डीराम जण्डे लैफ्टिनेंट
35	जे सी	27770	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट बापू बागानकर
36	जे सी	31850	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट नसीब सिंह
37	जे सी	31841	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट शिवाजी जगताप

सिगनल कोर

38	जे सी	31046	सूबेदार मेजर व अवैतनिक गनाना गुरु लैफ्टिनेंट	
39	जे सी	16891	सूबेदार मेजर व अवैतनिक गोपी चन्द लैफ्टिनेंट	
40	जे सी	18130	सूबेदार मेजर व अवैतनिक गुरनाम सिंह लैफ्टिनेंट	
41	जे सी	10238	सूबेदार मेजर व अवैतनिक हरी सिंह लैफ्टिनेंट	
42	जे सी	15595	सूबेदार मेजर व अवैतनिक काली दास लैफ्टिनेंट	
43	जे व	18140	सूबेदार मेजर व अवैतनिक एम थिरुनाव् करसु लैफ्टिनेंट	
44	जे सी	16647	सूबेदार मेजर व अवैतनिक एम एस मनी लैफ्टिनेंट	
45	जे सी	12809	सूबेदार मेजर व अवैतनिक टी के जेकब लैफ्टिनेंट	
46	जे सी	16640	सूबेदार मेजर व अवैतनिक तुलसी राम लैफ्टिनेंट	
47	जे सी	15586	सूबेदार मेजर व अवैतनिक वामन सावन्त लैफ्टिनेंट	
48	जे सी	34063	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बैज नाथ सिंह
49	जे सी	37919	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चरण सिंह
50	जे सी	34972	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दशरथ त्रिपाठी
51	जे मा	34946	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जी एम कोचर
52	जे सी	32092	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हर नस सिंह
53	जे सी	32031	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगदेव सिंह जमरोठिया
54	जे सी	16869	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	केहर सिंह
55	जे सी	32040	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मान सिंह
56	जे सी	31268	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	नसीब सिंह
57	जे मा	37220	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	परशु राम दुवे
58	जे सी	31040	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रेम सागर
59	जे सी	31806	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पुरशोत्तम लाल
60	जे सी	31302	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सत्यपाल पराशर
61	जे सी	32492	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सोविन्द्र सिंह
62	जे सी	34832	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टेहल सिंह
63	जे सी	29451	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	विक्रमजीत सिंह

ब्रिगेड आर्क वी गार्ड्स

64	जे सी	35573	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	बाबू राम
65	जे सी	45008	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	गुन बहादुर गुरंग
66	जे सी	34247	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	माला राम
67	जे सी	29661	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	शेर सिंह

पैरा हाट रेजीमेंट

68	जे सी	11314	सूबेदार मेजर व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	एम पी कुन्हाम्बू नम्बियार
69	जे सी	11197	सूबेदार मेजर व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	सुचेत सिंह
70	जे सी	25352	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	बीरबल राम

पंजाब रेजीमेंट

71	जे सी	17039	सूबेदार मेजर व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	मखन सिंह
72	जे सी	25271	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	बाबू सिंह
73	जे सी	39926	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	दयाल सिंह
74	जे सी	39249	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	हरनेक सिंह
73	जे सी	33177	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	इकबाल सिंह
76	जे सी	22356	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	जगदेव सिंह
77	जे सी	37735	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	नाथू राम
78	जे सी	22352	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	तेजराजिन्द्र सिंह मेहता

मद्रास रेजीमेंट

79	जे सी	33501	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	के पी भास्करन नायर
----	-------	-------	--------------------------------	--------------------

प्रिन्सिपल्स

80	जे सी	10280	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	भंवर सिंह
81	जे सी	16786	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	शिव चरन सिंह

मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

82	जे सी	28412	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	बाजीराव कपसे
83	जे सी	28223	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	बलवन्त सिंह
84	जे सी	32203	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	दाता राम सावन्त
85	जे सी	33774	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	मोहन बन्डेकर

राजपूताना राइफल्स

83	जे सी	33242	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	बलराम
87	जे सी	35268	सूबेदार व अर्वातनिक लैफ्टिनेंट	सुमेर सिंह

राजपूत रेजिमेंट

88	जे सी	23261	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	काली कुमार सिंह
89	जे सी	20895	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सन्तोष चन्द्र पाल
90	जे सी	37577	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भूर सिंह
91	जे सी	29507	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगजीत सिंह
92	जे सी	17017	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	परभाती राम
93	जे सी	53953	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम धनी सिंह
94	जे सी	20568	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरजू प्रसाद सिंह
95	जे सी	37574	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उम्मेद सिंह

जाट रेजिमेंट

96	जे सी	32914	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दरया सिंह
97	जे सी	35932	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हुकम चन्द
98	जे सी	18391	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	खजान सिंह
99	जे सी	34675	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	नवाब सिंह
100	जे सी	34903	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रेम सिंह
101	जे सी	35053	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम जीवन
102	जे सी	41219	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम लाल राम, सेना मैडल

सिख रेजिमेंट

103	जे सी	23533	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरवचन सिंह
104	जे सी	21762	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमर सिंह
105	जे सी	47654	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलबन्त सिंह
106	जे सी	47655	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरबन्स सिंह
107	जे सी	35603	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरनाम सिंह
108	जे सी	48985	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जरनैल सिंह
109	जे सी	47869	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करतार सिंह
110	जे सी	49671	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मोहिन्द्र सिंह
111	जे सी	43069	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रीतम सिंह
112	जे सी	32937	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सन्ता सिंह
113	जे सी	42499	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	उजागर सिंह

सिख लाइट इन्फैन्ट्री

114	जे सी	40965 ए	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरदेव सिंह
115	जे सी	38203 एन	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	नछतर सिंह

डोंगरा रेजिमेंट

116	जे सी	36674	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चरन दास
117	जे सी	36669	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अमर सिंह
118	जे सी	36225	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोपी चन्द
119	जे सी	34101	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वतन सिंह

गढ़वाल राइफल

120	जे सी	23523	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामचन्द्र कंडवाल]
-----	-------	-------	------------------------------	-------------------

कुमायूँ रेजिमेंट

121	जे सी	27538	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुमाई दत्त
122	जे सी	30450	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पान सिंह
123	जे सी	37712	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पान सिंह
124	जे सी	18194	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	परमा नन्द

आसाम रेजिमेंट

125	जे सी	30151	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अनपारा
126	जे सी	40627	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बालसंग अनल

बिहार रेजिमेंट

127	जे सी	17686	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिजन कुमार दास
-----	-------	-------	--------------------------------------	----------------

महार रेजिमेंट

128	जे सी	10374	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रामचन्द्र जाधव
-----	-------	-------	--------------------------------------	----------------

जम्मू व काश्मीर राइफल व लहाल स्काउट्स

129	जे सी	32955	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिधी चन्द
130	जे सी	32885	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम कृष्ण

1 गोरखा राइफल

131	जे सी	16814	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	टेक बहादुर नेवार
132	जे सी	30616	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दल बहादुर गुरंग
133	जे सी	44473	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगन बीर गुरंग
134	जे सी	48381	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	काशी राम गुरंग
135	जे सी	36895	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सेते गुरंग
136	जे सी	35334	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	शेर बहादुर राना
137	जे सी	33529	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तिल बहादुर थापा

4 गोरखा राइफल्स

138	जे सी 16090	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गोर्स पुन
139	जे सी 40653	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भावी लाल थापा
140	जे सी 34633	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दीवान सिंह थापा
141	जे सी 45104	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	ख़ादमान घाले
142	जे सी 27374	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मित्र सेन थापा
143	जे सी 32636	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	नारन बीर थापा
144	जे सी 36214	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रेम बहादुर गुरंग
145	जे सी 39045	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	तीरथ राज गुरंग

5 गोरखा राइफल्स

146	जे सी 17085	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्रीप्रसाद गुरंग
147	जे सी 45865	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलबहादुर पुन
148	जे सी 51166	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलसिंग राना
149	जे सी 44362	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	डमरबहादुर गुरंग
150	जे सी 51165	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धनबीर गुरंग
151	जे सी 36873	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कमानसिंग थापा
152	जे सी 33017	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	केसर थापा
153	जे सी 49436	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मनबहादुर थापा
154	जे सी 46166	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सामबहादुर गुरंग
155	जे सी 43281	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सिंगराज गुरंग

8 गोरखा राइफल्स

156	जे सी 37351	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अश्वबहादुर गुरंग
157	जे सी 34414	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बीरेन्द्रसिंग गुरंग
158	जे सी 52974	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चन्द्रनसिंग थापा
159	जे सी 43695	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	एमबहादुर पुन
160	जे सी 36221	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गनबहादुर गुरंग
161	जे सी 20659	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जंगवीर गुरंग
162	जे सी 43307	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जीत बहादुर गुरंग

9 गोरखा राइफल्स

163	जे सी 18436	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लाल बहादुर साही
164	जे सी 33330	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाल बहादुर खड्का

11 गोरखा राइफल्स

165	जे सी 46566	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जरधन राय
166	जे सी 24894	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	करन बहादुर राय
167	जे सी 28683	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रतन बहादुर

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

168	ज सी	28835	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरमेल सिंह
169	ज सी	14240	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरजीत सिंह कंडोला
170	ज सी	26866	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुशील कुमार दत्ता
171	जे सी	37008	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जगदेव सिंह सोढ़ी

सेना सेवा कोर (यांत्रिक परिवहन)

172	जे सी	42012	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हशारा सिंह
173	ज सी	43373	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हिरदा नरायण पान्डे

सेना चिकित्सा कोर

174	जे सी	17684	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	भगत राम सोहं
175	जे सी	34704	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	लखी राम
176	जे सी	22472	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मदन चन्द्र भोमिक
177	जे सी	34706	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	श्रोम परकाश
178	जे सी	34711	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	प्रहलाद सिंह श्रोबेरो
179	जे सी	45781	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रूप लाल कक्कड़
180	जे सी	31563	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बलचन्त सिंह

सेना आर्जिनेंस कोर

181	जे सी	14320	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बाबू राम
182	जे सी	11246	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बिसराम चन्द्र
183	जे सी	21142	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हरी दत्त
184	जे सी	12499	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	रघुनाथ दास सूरी
185	जे सी	48877	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	बनारसी लाल
186	ज सी	41182	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	देव चन्द्र
187	जे सी	41177	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दीवाकर तिवारी
188	ज सी	14302	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	गुरदेव सिंह
189	ज सी	35805	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जय किशोर तिवारी

विद्युत् व यांत्रिक इंजीनियरिंग कोर

190	ज सी	19014	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	चिन्त राम शर्मा
191	ज सी	21381	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	धमदूर सिंह
192	ज सी	16217	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	जनक सिंह
193	ज सी	19065	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	कुन्दन लाल साहनी
194	जे सी	21391	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	निकिल रंजन डे
195	जे सी	18640	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	वी एम जार्ज
196	ज सी	28709	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सुन्दर डोगरा

सेना शिक्षा कोर

197	जे सी	12109	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	हंस राज
198	जे सी	12104	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम प्रकाश
199	जे सी	11731	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम सरन कुन्ज
200	जे सी	22126	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	अजीत सिंह
201	जे सी	36110	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	दीप बहादुर छेत्री

आसूचना कोर

202	जे सी	7653	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	पी थंकयाह
203	जे सी	30480	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	यदुनाथ सिंह
204	जे सी	24904	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	राम दास

सेना पुलिस कोर

205	जे सी	24112	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	परमोद्य सिंह
-----	-------	-------	------------------------------	--------------

पाइनियर कोर

206	जे सी	16067	सूबेदार व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	मलहार राव
-----	-------	-------	------------------------------	-----------

डिफेंस सिविलियरिटी कोर

207	51442	जे सी	सूबेदार मेजर व अवैतनिक लैफ्टिनेंट	सरूप सिंह
-----	-------	-------	-----------------------------------	-----------

अवैतनिक लैफ्टिनेंट के रैंक में

रक्षा सुरक्षा कोर

1	45531	जे सी	सूबेदार मेजर	ब्रह्म सरूप
2	31636	जे सी	सूबेदार मेजर	लछमन सिंह
3	46150	जे सी	सूबेदार मेजर	मेहुता सीता राम दत्ता
4	51348	जे सी	सूबेदार मेजर	रोशन लाल डोगरा

अवैतनिक रिसालदार / सूबेदार मेजर के रैंक में

2 लान्सर्स

1	जे सी	11763	रिसालदार	सुरज भान शर्मा
---	-------	-------	----------	----------------

18 कैवलरी

2	जे सी	35293	रिसालदार	धनराज
---	-------	-------	----------	-------

72 आरम्भ रेजिमेंट

3	जे सी	44717	रिसालदार	प्रीतम सिंह
---	-------	-------	----------	-------------

74 आरम्भ रेजिमेंट

4	जे सी	36732	रिसालदार	अमीन चन्द
---	-------	-------	----------	-----------

तोपखाना रेजिमेंट

5	जे सी	18896	सूबेदार	गनपत सिंह
6	जे सी	32811	सूबेदार	जानकी नाथ
7	जे सी	33307	सूबेदार	सुरज भान
8	जे सी	31029	सूबेदार	टी सी गोपालन नम्बियार
9	जे सी	32840	सूबेदार	उदे सिंह

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

10	जे सी	39222	सूबेदार	दक्षिणामूर्ती
11	जे सी	30608	सूबेदार	के सी गोविन्दासामी
12	जे सी	40138	सूबेदार	श्री वरगीज

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

13	जे सी	43610	सूबेदार	जगत सिंह
----	-------	-------	---------	----------

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

14	जे सी	34450	सूबेदार	विथोबा चवान
----	-------	-------	---------	-------------

सिगनसस कोर

15	जे सी	14184	सूबेदार	ए गोपीनाथन
16	जे सी	34859	सूबेदार	एल्योयसियस फर्नडीज
17	जे सी	32075	सूबेदार	अमर सिंह
18	जे सी	42042	सूबेदार	बलदेव राय
19	जे सी	28042	सूबेदार	भगवन्त सिंह
20	जे सी	34945	सूबेदार	चरन सिंह
21	जे सी	32052	सूबेदार	धर्म सिंह
22	जे सी	34962	सूबेदार	गुरचरन सिंह
23	जे सी	25985	सूबेदार	हरदयाल सिंह
24	जे सी	37917	सूबेदार	हरी सिंह
25	जे सी	31058	सूबेदार	के एस एम मेनन
26	जे सी	36798	सूबेदार	काशी नाथ
27	जे सी	34855	सूबेदार	एम बाबू
28	जे सी	40784	सूबेदार	मेहताब सिंह
29	जे सी	31831	सूबेदार	पी के अचूतन नायर
30	जे सी	31062	सूबेदार	परस राम
31	जे सी	34860	सूबेदार	पवित्र सिंह
32	जे सी	32049	सूबेदार	रतन चन्द
33	जे सी	32045	सूबेदार	रेशम सिंह
34	जे सी	34829	सूबेदार	एम पी गोविन्दा राजू
35	जे सी	35174	सूबेदार	सदानन्दन
36	जे सी	31275	सूबेदार	सन्तोष सिंह

37	जे सी	34833	सूबेदार	सन्तोख सिंह
38	जे सी	29443	सूबेदार	सरदार सिंह
39	जे सी	26079	सूबेदार	सूरज प्रकाश
40	जे सी	15606	सूबेदार	यू कुरुनाकरन नायर
ब्रिगेड आफ बी गार्ड्स				
41	जे सी	37749	सूबेदार	बलविन्द्र सिंह
42	जे सी	32457	सूबेदार	माला राम
43	जे सी	29257	सूबेदार	रामजी लाल
पैराशूट रेजिमेंट				
44	जे सी	35355	सूबेदार	काशीराम जाधव
प्रनेथियरस				
45	जे सी	33534	सूबेदार	रूप सिंह
मराठा लाइट इन्फनटरी				
46	जे सी	39057	सूबेदार	मुकन्द सैल
राजपूत रेजिमेंट				
47	जे सी	49298	सूबेदार	विजय सिंह
48	जे सी	37704	सूबेदार	महादेव प्रसाद गुप्ता
सिख रेजिमेंट				
49	जे सी	51231	सूबेदार	जोगिन्द्र सिंह
50	जे सी	37603	सूबेदार	निर्मल सिंह
डोगरा रेजिमेंट				
51	जे सी	36077	सूबेदार	भगवान सिंह
52	जे सी	35493	सूबेदार	गिरधारी सिंह
53	जे सी	35492	सूबेदार	कान्शी राम
कुमायूं रेजिमेंट				
54	जे सी	42758	सूबेदार	उम्मेद सिंह
जम्मू व काश्मीर राइफल्स और लद्दाख स्काउट्स				
55	जे सी	43655	सूबेदार	काका राम
4 गोरखा राइफल्स				
56	जे सी	45133	सूबेदार	अमर सिंह थापा
57	जे सी	35368	सूबेदार	देव भगन थापा
58	जे सी	45627	सूबेदार	एक बहादुर थापा

5 गोरखा राइफल्स

59	जे सी	35828	सूबेदार	असबहादुर गुरंग
60	जे सी	50202	सूबेदार	चन्दनसिंह भण्डारी
61	जे सी	41933	सूबेदार	दलबहादुर पुन
62	जे सी	43282	सूबेदार	खम्बासिंह गुरंग

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

63	जे सी	52455	सूबेदार	गुरबचन सिंह
----	-------	-------	---------	-------------

सेना बिकिस्ता कोर

64	जे सी	35984	सूबेदार	शिव नाथ उपाध्याय
65	जे सी	31565	सूबेदार	यू विश्वनाथन

सेना आइनेम्स कोर

66	जे सी	48882	सूबेदार	बेन्जामिन फ्रेंकलिन
67	जे सी	44159	सूबेदार	गिर राज शर्मा
68	जे सी	41180	सूबेदार	लछमन दास
69	जे सी	44153	सूबेदार	मदन लाल शर्मा
70	जे सी	49326	सूबेदार	मदन लाल वेद
71	जे सी	50445	सूबेदार	राम औतार
72	जे सी	44150	सूबेदार	राम लभाया सूरी

बिद्युत व यांत्रिक इंजीनियरस कोर

73	जे सी	37149	सूबेदार	ए नरायना सामी
74	जे सी	16259	सूबेदार	गुरबचन सिंह
75	जे सी	39712	सूबेदार	जसवन्त सिंह
76	जे सी	33882	सूबेदार	रामकिशन
77	जे सी	28886	सूबेदार	याद राम

सेना शिक्षा कोर

78	जे सी	36107	सूबेदार	अजायब सिंह
79	जे सी	19428	सूबेदार	मनी राम

सेना पुलिस कोर

80	जे सी	42904	सूबेदार	गुलज़ार सिंह
81	जे सी	42262	सूबेदार	सरजीत सिंह

अवेतमिक रिसालदार । सूबदार के रैंक में

74 आरमर्ड रेजिमेंट

1	जे सी	69875	भायब रिसालदार	हरबन्स सिंह
---	-------	-------	---------------	-------------

तोपखाना रेजिमेंट

2 जे सी 68620	नायब सूबेदार	बरफ सिंह
3 जे सी 70814	नायब सूबेदार	गुरचरन सिंह
4 जे सी 66734	नायब सूबेदार	महादेव घुटने
5 जे सी 67607	नायब सूबेदार	शमशेर सिंह

सद्रास इंजीनियर ग्रुप

6 जे सी 41309	नायब सूबेदार	अहमद शरीफ
7 जे सी 52037	नायब सूबेदार	के अय्यापिल्ले

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

8 जे सी 67053	नायब सूबेदार	जय नारायण
9 जे सी 66744	नायब सूबेदार	मोहिन्द्र सिंह
10 जे सी 67054	नायब सूबेदार	राज देव तिवारी
11 जे सी 64675	नायब सूबेदार	रंजीत सिंह

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

12 जे सी 67981	नायब सूबेदार	बशीचा सिंह
13 जे सी 47694	नायब सूबेदार	दलीप सिंह
14 जे सी 50781	नायब सूबेदार	जोगिन्द्र सिंह
15 जे सी 50777	नायब सूबेदार	काका सिंह
16 जे सी 55052	नायब सूबेदार	किशन सिंह
17 जे सी 17476	नायब सूबेदार	राम किशन बंसल
18 जे सी 50784	नायब सूबेदार	विश्राम उत्तेकर

सिगनल कोर

19 जे सी 60637	नायब सूबेदार	आनन्द स्वरूप
20 जे सी 68012	नायब सूबेदार	बाबू सिंह
21 जे सी 70287	नायब सूबेदार	बालकृष्ण
22 जे सी 60708	नायब सूबेदार	बलवन्त सिंह
23 जे सी 62149	नायब सूबेदार	चन्द्र प्रकाश शर्मा
24 जे सी 60252	नायब सूबेदार	चन्द्र शेखरन पिल्ले जी
25 जे सी 68014	नायब सूबेदार	गंगा राम
26 जे सी 60699	नायब सूबेदार	हरी दत्त
27 जे सी 62191	नायब सूबेदार	के एम सेम्पूएल
28 जे सी 68007	नायब सूबेदार	प्रमोद तोपो
29 जे सी 60611	नायब सूबेदार	पुरुषोत्तम सिंह
30 जे सी 53242	नायब सूबेदार	रघुनाथ सिंह शर्मा
31 जे सी 53233	नायब सूबेदार	रोमाल सिंह
32 जे सी 71089	नायब सूबेदार	सेवा सिंह
33 जे सी 66102	नायब सूबेदार	शौकीन सिंह
34 जे सी 53241	नायब सूबेदार	सुल्तान सिंह
35 जे सी 66110	नायब सूबेदार	टो गंगाधरन
36 जे सी 70304	नायब सूबेदार	तीरथ राम

ब्रिगेड ग्राफ बी गार्डस

37 जे सी 64908 } नायब सूबेदार राम सिंह

पैराग्रूट रेजिमेंट

38 जे सी 63730 } नायब सूबेदार पहल बहादुर मल

पंजाब रेजिमेंट

39 जे सी 47586 नायब सूबेदार ऐला राम
 40 जे सी 41759 नायब सूबेदार बन्ता सिंह
 41 जे सी 44706 नायब सूबेदार विधी चन्द
 42 जे सी 39778 नायब सूबेदार बिशन सिंह
 43 जे सी 50499 नायब सूबेदार छज्जू राम
 44 जे सी 46608 नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह
 45 जे सी 44741 नायब सूबेदार नसीब सिंह
 46 जे सी 53990 नायब सूबेदार पराक्रम सिंह
 47 जे सी 64006 नायब सूबेदार रिन्धर सिंह
 48 जे सी 55540 नायब सूबेदार शंकर दास

मद्रास रेजीमेंट

49 जे सी 67162 नायब सूबेदार बोधी रेड्डी शंकरय्या
 50 जे सी 67163 नायब सूबेदार मन्डा जयाचन्द्ररुद्र
 51 जे सी 68753 नायब सूबेदार एन अप्पुकुट्टन नायर
 52 जे सी 66924 नायब सूबेदार बेलाप्पन एन

प्रिन्सेडियरस

53 जे सी 39789 नायब सूबेदार भीरो सिंह
 54 जे सी 57564 नायब सूबेदार मोहन सिंह
 55 जे सी 48961 नायब सूबेदार सुल्तान सिंह

मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

56 जे सी 53914 नायब सूबेदार शान्ताराम शिन्दे

राजपूत रेजिमेंट

57 जे सी 59061 नायब सूबेदार लाल सिंह
 58 जे सी 56406 नायब सूबेदार महावीर प्रसाद घांड्याल
 59 जे सी 71458 नायब सूबेदार मोती सिंह
 60 जे सी 67674 नायब सूबेदार पहलाद सिंह
 61 जे सी 48826 नायब सूबेदार रज्जू सिंह
 62 जे सी 54060 नायब सूबेदार रामपत सिंह

जाट रेजिमेंट

63 जे सी 58840 नायब सूबेदार भारत सिंह
 64 जे सी 49503 नायब सूबेदार शशवीर सिंह

सिल्ल रेजिमेंट

65	जे सी	57123	नायब सूबेदार	अमर सिंह
66	जे सी	50726	नायब सूबेदार	दीवान सिंह
67	जे सी	65157	नायब सूबेदार	करतार सिंह
68	जे सी	67690	नायब सूबेदार	निरंजन सिंह
69	जे सी	68134	नायब सूबेदार	सुचा सिंह
70	जे सी	53567	नायब सूबेदार	सुजान सिंह
71	जे सी	59025	नायब सूबेदार	तरलोक सिंह

डोगरा रेजिमेंट

72	जे सी	64582	नायब सूबेदार	जरम सिंह
73	जे सी	65101	नायब सूबेदार	जसवन्त सिंह, सेना मैडल
74	जे सी	58622	नायब सूबेदार	जोगिन्द्र सिंह
75	जे सी	66983	नायब सूबेदार	कांशी राम
76	जे सी	65473	नायब सूबेदार	रतन चन्द
77	जे सी	60770	नायब सूबेदार	रोशन सिंह
78	जे सी	64663	नायब सूबेदार	रुलिया राम

कुमायूँ रेजिमेंट

79	जे सी	39266	नायब सूबेदार	चन्द्र मोहन सिंह
80	जे सी	66242	नायब सूबेदार	दान सिंह
81	जे सी	51235	नायब सूबेदार	खजान सिंह
82	जे सी	66583	नायब सूबेदार	नेता नन्द
83	जे सी	70029	नायब सूबेदार	समन्दर सिंह
84	जे सी	64014	नायब सूबेदार	शिव नारायण
85	जे सी	63912	नायब सूबेदार	शिवेन्द्र सिंह

जम्मू व काश्मीर राइफल्स और लद्दाख स्काउट्स

86	जे सी	70461	नायब सूबेदार	फुनबोक पलजोरे
87	जे सी	58522	नायब सूबेदार	पूरन सिंह

जम्मू व काश्मीर मलेशिया

88	जे सी	263	नायब सूबेदार	शान सिंह
----	-------	-----	--------------	----------

1 गोरखा राइफल्स

89	जे सी	61894	नायब सूबेदार	दुर्गा प्रशाद प्रधान
90	जे सी	64277	नायब सूबेदार	तग बहादुर पुन
91	जे सी	65537	नायब सूबेदार	तुलबीर सिंह गुरंग

5 गोरखा राइफल्स

92	जे सी	56487	नायब सूबेदार	जबान सिंह पुन
93	जे सी	52251	नायब सूबेदार	जयराम पुन
94	जे सी	52205	नायब सूबेदार	रन बहादुर गुरंग

8 गोरखा राइफलस

95	जे सी 67021	नायब सूबेदार	भक्त बहादुर गुरंग
96	जे सी 58957	नायब सूबेदार	खड्क बहादुर गुरंग

11 गोरखा राइफलस

97	जे सी 59957	नायब सूबेदार	हड्क बहादुर राय
----	-------------	--------------	-----------------

सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

98	जे सी 53727	नायब रिसालदार	आनन्द सरूप
99	जे सी 65355	नायब रिसालदार	धनी राम

सेना चिकित्सा कोर

100	जे सी 51638	नायब सूबेदार	शरत चन्द्रो.महापतरो
-----	-------------	--------------	---------------------

सेना आडिनेन्स कोर

101	जे सी 33048	नायब सूबेदार	देस राज
102	जे सी 66872	नायब सूबेदार	आर रजियाह

विद्युत् व यांत्रिक इंजीनियरस कोर

103	जे सी 67833	नायब सूबेदार	बी आर पुरोहित
104	जे सी 56728	नायब सूबेदार	श्रींकार नाथ लट्ठ
105	जे सी 50674	नायब सूबेदार	प्रदीप सिन्हा
106	जे सी 69382	नायब सूबेदार	पुरुषोत्तम लाल
107	जे सी 55646	नायब सूबेदार	सच्चितानन्द
108	जे सी 54536	नायब सूबेदार	सन्तोष सिंह
109	जे सी 52720	नायब सूबेदार	टी एन लक्ष्मीकान्तन

रिमाउन्ट व पशु चिकित्सा कोर

110	आर बी 7239	नायब रिसालदार	अमर सिंह
111	आर बी 7243	नायब रिसालदार	नसीब सिंह

सेना पुलिस कोर

112	जे सी 65012	नायब सूबेदार	दयानन्द
113	जे सी 65550	नायब सूबेदार	धर्म सिंह

रक्षा सुरक्षा कोर

114	जे सी 50831	नायब सूबेदार	आर सामी दुराई
-----	-------------	--------------	---------------

No. 3-E, dated 22nd January 1976.—The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned JCOs on retirement under Para 180 of Regulations for the Army, 1962:—

To be Honorary Captains

7 CAVALRY

1 JC 13351 Ris & Hony Lt KARAM SINGH

8 CAVALRY

2 JC 18118 Ris & Hony Lt KARTAR SINGH

9 HORSE

3 JC 38368 Ris Maj & Hony Lt BRAHMA NAND, Vrc

66 ARMoured REGIMENT

4 JC 32813 Ris & Hony Lt RAM SINGH

ARMoured CORPS

5 JC 23365 Ris Maj & Hony Lt GOPI CHAND YADAVA.

REGIMENT OF ARTILLERY

6 JC 15417	Sub Maj & Hony Lt	DUNI CHAND
7 JC 9667	Sub Maj & Hony Lt	JOSEPH
8 JC 11594	Sub Maj & Hony Lt	SARJIT SINGH
9 JC 41331	Sub & Hony Lt	ANKUSH SAVANT
10 JC 29033	Sub & Hony Lt	CHANDRU KANSE
11 JC 25841	Sub & Hony Lt	DIHAN SINGH
12 JC 40294	Sub & Hony Lt	INDER SINGH
13 JC 32791	Sub & Hony Lt	MANOHAR LALL
14 JC 44295	Sub & Hony Lt	RAJA RAM ITAPE
15 JC 17324	Sub & Hony Lt	RAM KISAN
16 JC 33429	Sub & Hony Lt	SARAN SINGH BAINS
17 JC 40225	Sub & Hony Lt	TUKA RAM POWAR

MADRAS ENGINEER GROUP

18 JC 10421	Sub Maj & Hony Lt	K SATHIYANARAYANA
19 JC 12345	Sub Maj & Hony Lt	NRIPENDRA CHANDRA CHANDA
20 JC 39220	Sub & Hony Lt	A KESAVAN

BENGAL ENGINEER GROUP

21 JC 23370	Sub Maj & Hony Lt	AM GEORGE
22 JC 17175	Sub Maj & Hony Lt	C ANTHONY CRUZ
23 JC 15940	Sub Maj & Hony Lt	DEO NANDAN SINGH
24 JC 9245	Sub Maj & Hony Lt	GANESH DATT
25 JC 10192	Sub Maj & Hony Lt	JAGDIP SINGH
26 JC 28265	Sub Maj & Hony Lt	K APPUKUTTAN
27 JC 18372	Sub Maj & Hony Lt	KE JOSEPH
28 JC 12607	Sub Maj & Hony Lt	PAN SINGH
29 JC 15887	Sub Maj & Hony Lt	S SIVA RAMAN
30 JC 9248	Sub Maj & Hony Lt	SANTOKH SINGH
31 JC 11125	Sub Maj & Hony Lt	SAT PAL SETHI
32 JC 23373	Sub Maj & Hony Lt	SUBEDAR SINGH
33 JC 12301	Sub Maj & Hony Lt	TARLOK NATH

BOMBAY ENGINEER GROUP

34 JC 11338	Sub Maj & Hony Lt	NARAYAN DHONDIRAM JENDE
35 JC 27770	Sub & Hony Lt	BAPU BAGANKAR
36 JC 31850	Sub & Hony Lt	NASIB SINGH
37 JC 31841	Sub & Hony Lt	SHIVAJI JAGTAP

CORPS OF SIGNALS

38	JC 31046	Sub Maj & Hony Lt	GNANA GURU
39	JC 16891	Sub Maj & Hony Lt	GOPI CHAND
40	JC 18130	Sub Maj & Hony Lt	GURNAM SINGH
41	JC 10238	Sub Maj & Hony Lt	HARI SINGH
42	JC 15595	Sub Maj & Hony Lt	KALI DASS
43	JC 18140	Sub Maj & Hony Lt	M THIRUNAVU KARASU
44	JC 16647	Sub Maj & Hony Lt	MS MANI
45	JC 12809	Sub Maj & Hony Lt	TK JACOB
46	JC 16640	Sub Maj & Hony Lt	TULSI RAM
47	JC 15586	Sub Maj & Hony Lt	WAMAN SAWANT
48	JC 34968	Sub & Hony Lt	BAIJ NATH SINGH
49	JC 37919	Sub & Hony Lt	CHARAN SINGH
50	JC 34972	Sub & Hony Lt	DASHRATH TRIPATHI
51	JC 34946	Sub & Hony Lt	GS KOCHAR
52	JC 32092	Sub & Hony Lt	HARBANS SINGH
53	JC 32051	Sub & Hony Lt	JAGDEV SINGH JASROTIA
54	JC 16869	Sub & Hony Lt	KEHAR SINGH
55	JC 32040	Sub & Hony Lt	MAN SINGH
56	JC 31258	Sub & Hony Lt	NASIB SINGH
57	JC 37220	Sub & Hony Lt	PARASHU RAM DUBEY
58	JC 31040	Sub & Hony Lt	PREM SAGAR
59	JC 31806	Sub & Hony Lt	PURSHOTAM LAL
60	JC 31302	Sub & Hony Lt	SATYA PAUL PARASHER
61	JC 32492	Sub & Hony Lt	SOVENDRA SINGH
62	JC 34832	Sub & Hony Lt	TEHL SINGH
63	JC 29451	Sub & Hony Lt	VIKRAMJIT SINGH

BRIGADE OF THE GUARDS

64	JC 35573	Sub & Hony Lt	BABU RAM
65	JC 45008	Sub & Hony Lt	GUN BAHADUR GURUNG
66	JC 34247	Sub & Hony Lt	MALA RAM
67	JC 29661	Sub & Hony Lt	SHER SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

68	JC 11314	Sub Maj & Hony Lt	MP KUNHAMBU NAMBIAR
69	JC 11197	Sub Maj & Hony Lt	SUCHET SINGH
70	JC 25352	Sub & Hony Lt	BIRBAL RAM

THE PUNJAB REGIMENT

71	JC 17039	Sub Maj & Hony Lt	MAKHAN SINGH
72	JC 25271	Sub & Hony Lt	BABU SINGH
73	JC 39926	Sub & Hony Lt	DIAL SINGH
74	JC 39249	Sub & Hony Lt	HARNEK SINGH
75	JC 33177	Sub & Hony Lt	IQBAL SINGH
76	JC 22356	Sub & Hony Lt	JAGDEV SINGH
77	JC 37735	Sub & Hony Lt	NATHU RAM
78	JC 22352	Sub & Hony Lt	TEJRAJINDER SINGH MEHTA

THE MADRAS REGIMENT

79	JC 33501	Sub & Hony Lt	KP BHASKARAN NAIR
----	----------	---------------	-------------------

THE GRENADIERS

80	JC 10280	Sub & Hony Lt	BHANWAR SINGH
81	JC 16786	Sub & Hony Lt	SHIV CHARAN SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

82	JC 28412	Sub & Hony Lt	BAJIRAO KAPLE
83	JC 28223	Sub & Hony Lt	BALVANT SINGH
84	JC 32203	Sub & Hony Lt	DATTARAM SAWANT
85	JC 33774	Sub & Hony Lt	MOHAN BANDEKAR

THE RAJPUTANA RIFLES

86	JC 33242	Sub & Hony Lt	BAL RAM
87	JC 35268	Sub & Hony Lt	SUMER SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

88	JC 23261	Sub Maj & Hony Lt	KALI KUMAR SINGH
89	JC 20895	Sub Maj & Hony Lt	SONTOSH CHANDRA PAUL
90	JC 37577	Sub & Hony Lt	BHUR SINGH
91	JC 29507	Sub & Hony Lt	JAGJIT SINGH
92	JC 17017	Sub & Hony Lt	PARBHATI RAM
93	JC 53953	Sub & Hony Lt	RAM DHANI SINGH
94	JC 20568	Sub & Hony Lt	SARJOO PARSHAD SINGH
95	JC 37574	Sub & Hony Lt	UMED SINGH

THE JAT REGIMENT

96	JC 32914	Sub & Hony Lt	DARYA SINGH
97	JC 35932	Sub & Hony Lt	HUKAM CHAND
98	JC 18391	Sub & Hony Lt	KHAZAN SINGH
99	JC 34675	Sub & Hony Lt	NAWAB SINGH
100	JC 34903	Sub & Hony Lt	PREM SINGH
101	JC 35053	Sub & Hony Lt	RAM JIWAN
102	JC 41219	Sub & Hony Lt	RAM LAL RAM, SM

THE SIKH REGIMENT

103	JC 23533	Sub Maj & Hony Lt	GURBACHAN SINGH
104	JC 21762	Sub & Hony Lt	AMAR SINGH
105	JC 47654	Sub & Hony Lt	BALWANT SINGH
106	JC 47655	Sub & Hony Lt	HARBANS SINGH
107	JC 35603	Sub & Hony Lt	HARNAM SINGH
108	JC 48985	Sub & Hony Lt	JARNAIL SINGH
109	JC 47869	Sub & Hony Lt	KARTAR SINGH
110	JC 49671	Sub & Hony Lt	MOHINDER SINGH
111	JC 43069	Sub & Hony Lt	PRITEEM SINGH
112	JC 32937	Sub & Hony Lt	SANTA SINGH
113	JC 42499	Sub & Hony Lt	UJAGAR SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

114	JC 40965A	Sub & Hony Lt	GURDEV SINGH
115	JC 38203N	Sub & Hony Lt	NACHHATAR SINGH

THE DOGRA REGIMENT

116	JC 36674	Sub Maj & Hony Lt	CHARAN DAS
117	JC 36669	Sub & Hony Lt	AMAR SINGH
118	JC 36225	Sub & Hony Lt	GOPI CHAND
119	JC 34101	Sub & Hony Lt	WATTAN SINGH

THE GARHWAL RIFLES

120	JC 23523	Sub & Hony Lt	RAMCHANDAR KANDWAL
-----	----------	---------------	--------------------

THE KUMAON REGIMENT

121	JC 27538	Sub & Hony Lt	GUSAIN DATT
122	JC 30450	Sub & Hony Lt	PAN SINGH
123	JC 37712	Sub & Hony Lt	PAN SINGH
124	JC 18194	Sub & Hony Lt	PARMA NAND

THE ASSAM REGIMENT

125	JC 30151	Sub & Hony Lt	THANPARA
126	JC 40627	Sub & Hony Lt	WALSUNG ANAL

THE BIHAR REGIMENT

127	JC 17686	Sub Maj & Hony Lt	BIJAN KUMAR DAS
-----	----------	-------------------	-----------------

THE MAHAR REGIMENT

128	JC 10374	Sub Maj & Hony Lt	RAM CHANDRA JADHAV
-----	----------	-------------------	--------------------

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES AND LADAKH SCOUTS

129	JC 32955	Sub & Hony Lt	BIDHI CHAND
130	JC 32885	Sub & Hony Lt	RAM KRISHAN

1 GORKHA RIFLES

131	JC 16814	Sub Maj & Hony Lt	TEK BAHADUR NEWAR
132	JC 30616	Sub & Hony Lt	DAL BAHADUR GURUNG
133	JC 44473	Sub & Hony Lt	JAGAN BIR GURUNG
134	JC 48381	Sub & Hony Lt	KASI RAM GURUNG
135	JC 36895	Sub & Hony Lt	SETE GURUNG
136	JC 35334	Sub & Hony Lt	SHER BAHADUR RANA
137	JC 33529	Sub & Hony Lt	TIL BAHADUR THAPA

4 GORKHA RIFLES

138	JC 16090	Sub Maj & Hony Lt	GAURAS PUN
139	JC 40653	Sub & Hony Lt	BHABI LAL THAPA
140	JC 34633	Sub & Hony Lt	DEWAN SINGH THAPA
141	JC 45104	Sub & Hony Lt]	KHADMAN GHALE
142	JC 27374	Sub & Hony Lt	MITTA SAIN THAPA
143	JC 32636	Sub & Hony Lt	NARAN BIR THAPA
144	JC 36214	Sub & Hony Lt	PREM BAHADUR GURUNG
145	JC 39045	Sub & Hony Lt	TIRTHA RAJ GURUNG

5 GORKHA RIFLES

146	JC 17085	Sub Maj & Hony Lt	SIRIPARSAD GURUNG
147	JC 45865	Sub & Hony Lt	BALBAHADUR PUN
148	JC 51166	Sub & Hony Lt	BALSING RANA
149	JC 44362	Sub & Hony Lt	DAMARBAHADUR GURUNG
150	JC 51165	Sub & Hony Lt	DHANBIR GURUNG
151	JC 36873	Sub & Hony Lt	KAMANSING THAPA
152	JC 33017	Sub & Hony Lt	KESAR THAPA
153	JC 49436	Sub & Hony Lt	MANBAHADUR THAPA
154	JC 46166	Sub & Hony Lt	SAMBAHADUR GURUNG
155	JC 43281	Sub & Hony Lt	SINGRAJ GURUNG

8 GORKHA RIFLES

156	JC 37351	Sub & Hony Lt	ASHBAHADUR GURUNG
157	JC 34414	Sub & Hony Lt	BIRENDRASING GURUNG
158	JC 52974	Sub & Hony Lt	CHANDANSING THAPA
159	JC 43695	Sub & Hony Lt	EMBAHADUR PUN
160	JC 36221	Sub & Hony Lt	GANBAHADUR GURUNG
161	JC 20659	Sub & Hony Lt	JANGBIR GURUNG
162	JC 43307	Sub & Hony Lt	[JIT BAHADUR GURUNG]

9 GORKHA RIFLES

163	JC 18436	Sub Maj & Hony Lt	LAL BAHADUR SAHI
164	JC 33330	Sub & Hony Lt	BAL BAHADUR KHADKA

11 GORKHA RIFLES

165	JC 46566	Sub & Hony Lt	JARDHAN RAI
166	JC 24894	Sub & Hony Lt	KARNA BAHADUR RAI
167	JC 28683	Sub & Hony Lt	RATNA BAHADUR RAI

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

168	JC 28835	Sub Maj & Hony Lt	GURMEL SINGH
169	JC 14240	Sub Maj & Hony Lt	SARJIT SINGH KANDOLA
170	JC 26866	Sub Maj & Hony Lt	SUSHIL KUMAR DATTA
171	JC 37008	Sub & Hony Lt	JAGDEV SINGH SODHI

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

172	JC 42012	Sub & Hony Lt	HAZARA SINGH
173	JC 43373	Sub & Hony Lt	HIRDA NARAIN PANDEY

ARMY MEDICAL CORPS

174	JC 17684	Sub Maj & Hony Lt	BHAGAT RAM SOIN
175	JC 34704	Sub Maj & Hony Lt	LAKHI RAM
176	JC 22472	Sub Maj & Hony Lt	MADAN CHANDRA BHOWMICK
177	JC 34706	Sub Maj & Hony Lt	OM PARKASH
178	JC 34711	Sub Maj & Hony Lt	PREHLAD SINGH OBERO
179	JC 45781	Sub Maj & Hony Lt	RUP LAL KAKKAR
180	JC 31563	Sub & Hony Lt	BALWANT SINGH

ARMY ORDNANCE CORPS]

181	JC 14320	Sub Maj & Hony Lt	BABOO RAM
182	JC 11246	Sub Maj & Hony Lt	BISRAM CHANDRA
183	JC 21142	Sub Maj & Hony Lt	HARI DATT
184	JC 12499	Sub Maj & Hony Lt	RAGHUNATH DASS SURI
185	JC 48877	Sub & Hony Lt	BANARSI LAL
186	JC 41182	Sub & Hony Lt	DEO CHANDRA
187	JC 41177	Sub & Hony Lt	DIWAKAR TEWARI
188	JC 14302	Sub & Hony Lt	GURDEV SINGH
189	JC 35805	Sub & Hony Lt	JAI KISHORE TEWARI

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

190	JC 19014	Sub Maj & Hony Lt	CHINT RAM SHARMA
191	JC 21381	Sub Maj & Hony Lt	GHAMDUR SINGH
192	JC 16217	Sub Maj & Hony Lt	JANAK SINGH
193	JC 19065	Sub Maj & Hony Lt	KUNDAN LAL SAWHNEY
194	JC 21391	Sub Maj & Hony Lt	NIKKIL RANJAN DEY
195	JC 18640	Sub Maj & Hony Lt	VM GEORGE
196	JC 28709	Sub & Hony Lt	SUNDER DOGRA

ARMY EDUCATIONAL CORPS

197	JC 12109	Sub Maj & Hony Lt	HANS RAJ
198	JC 12104	Sub Maj & Hony Lt	RAM PARKASH
199	JC 11731	Sub Maj & Hony Lt	RAM SARAN KUNJ
200	JC 22126	Sub & Hony Lt	AJIT SINGH
201	JC 36110	Sub & Hony Lt	DIP BAHADUR CHETTRI

THE INTELLIGENCE CORPS

202	JC 7653	Sub Maj & Hony Lt	P THANKIAH
203	JC 30480	Sub Maj & Hony Lt	YADUNATH SINGH
204	JC 24904	Sub & Hony Lt	RAM DASS

CORPS OF MILITARY POLICE

205	JC 24112	Sub & Hony Lt	PARMODH SINGH
-----	----------	---------------	---------------

PIONEER CORPS

206	JC 16067	Sub & Hony Lt	MALHAR RAO
-----	----------	---------------	------------

DEFENCE SECURITY CORPS

207	51442 JC	Sub Maj & Hony Lt	SARUP SINGH
-----	----------	-------------------	-------------

To be Honorary Lieutenants

DEFENCE SECURITY CORPS

1	45531 JC	Sub Maj	BIRHAM SARUP
2	31636 JC	Sub Maj	LACHHMAN SINGH
3	46150 JC	Sub Maj	MEHTA SITA RAM DATTA
4	51348 JC	Sub Maj	ROSHAN LAL DOGRA

To be Honorary Risaldars/Subedar Majors

2 LANCERS

1	JC 11763	Ris	SURAJ BHAN SHARMA
---	----------	-----	-------------------

18 CAVALRY

2	JC 35293	Ris	DHANRAJ
---	----------	-----	---------

72 ARMoured REGIMENT

3	JC 44717	Ris	PRITAM SINGH
---	----------	-----	--------------

74 ARMoured REGIMENT

4	JC 36732	Ris	AMIN CHAND
---	----------	-----	------------

REGIMENT OF ARTILLERY

5	JC 18896	Sub	GANPAT SINGH
6	JC 32811	Sub	JANKI NATH
7	JC 33307	Sub	SURAJ BHAN
8	JC 31929	Sub	TC GOPALAN NAMBIAR
9	JC 32840	Sub	UDEY SINGH

MADRAS ENGINEER GROUP

10	JC 39222	Sub	DAKSHINAMURTHY
11	JC 30608	Sub	KC GOVINDASAMI
12	JC 40138	Sub	O VARGHESE

BENGAL ENGINEER GROUP

13	JC 43610	Sub	JAGAT SINGH
----	----------	-----	-------------

BOMBAY ENGINEER GROUP

14	JC 34450	Sub	VITHOBA CHAWAN
----	----------	-----	----------------

CORPS OF SIGNALS

15	JC 14184	Sub	A GOPINATHAN
16	JC 34859	Sub	ALOYSTIOUS FERNANDEZ
17	JC 32075	Sub	AMAR SINGH
18	JC 42042	Sub	BALDEV RAI
19	JC 28042	Sub	BHAGWANT SINGH
20	JC 34945	Sub	CHARAN SINGH
21	JC 32052	Sub	DHARM SINGH
22	JC 34962	Sub	GURCHARAN SINGH
23	JC 25985	Sub	HARDIAL SINGH
24	JC 37917	Sub	HARI SINGH
25	JC 31058	Sub	KSM MENON
26	JC 36798	Sub	KASHI NATH
27	JC 34855	Sub	M BABOO
28	JC 40784	Sub	MEHTAB SINGH
29	JC 31831	Sub	PK ACHUTAN NAIR
30	JC 31062	Sub	PARAS RAM

31	JC 34860	Sub	PAVITAR SINGH
32	JC 32049	Sub	RATTAN CHAND
33	JC 32045	Sub	RESHAM SINGH
34	JC 34829	Sub	SP GOVINDA RAJU
35	JC 35174	Sub	SADANANDAN
36	JC 31275	Sub	SANTOKH SINGH
37	JC 34833	Sub	SANTOKH SINGH
38	JC 29443	Sub	SARDAR SINGH
39	JC 26079	Sub	SURAJ PRAKASH
40	JC 15606	Sub	U KARUNAKARAN NAIR

BRIGADE OF THE GUARDS

41	JC 37749	Sub	BALWINDER SINGH
42	JC 32457	Sub	MALA RAM
43	JC 29257	Sub	RAMJI LAL

THE PARACHUTE REGIMENT

44	JC 35355	Sub	KASHI RAM JADHAV
----	----------	-----	------------------

THE GRENADIERS

45	JC 33534	Sub	ROOP SINGH
----	----------	-----	------------

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

46	JC 39057	Sub	MUKUND SAIL
----	----------	-----	-------------

THE RAJPUT REGIMENT

47	JC 49298	Sub	BIJAI SINGH
48	JC 37704	Sub	MAHADEV PRASHAD GUPTA

THE SIKH REGIMENT

49	JC 51231	Sub	JOGINDER SINGH
50	JC 37603	Sub	NIRMAL SINGH

THE DOGRA REGIMENT

51	JC 36077	Sub	BHAGWAN SINGH
52	JC 35493	Sub	GIRDHARI SINGH
53	JC 35492	Sub	KANSHI RAM

THE KUMAON REGIMENT

54	JC 42758	Sub	UMMED SINGH
----	----------	-----	-------------

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES AND LADAKH SCOUTS

55	JC 43655	Sub	KAKA RAM
----	----------	-----	----------

4 GORKHA RIFLES

56	JC 45133	Sub	AMAR SINGH THAPA
57	JC 35368	Sub	DEV MAGAN THAPA
58	JC 45627	Sub	EK BAHADUR THAPA

5 GORKHA RIFLES

59	JC 35828	Sub	ASBAHADUR GURUNG
60	JC 50202	Sub	CHANDANSING BHANDARI
61	JC 41933	Sub	DALBAHADUR PUN
62	JC 43282	Sub	KHAMBASINGH GURUNG

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

63	JC 52455	Sub	GURBACHAN SINGH
----	----------	-----	-----------------

ARMY MEDICAL CORPS

64	JC 35984	Sub	SHEO NATH UPADHYAY
65	JC 31565	Sub	U VISWANATHAN

ARMY ORDNANCE CORPS

66	JC 48882	Sub	BENJAMIN FRANKLIN
67	JC 44159	Sub	GIR RAJ SHARMA
68	JC 41180	Sub	LACHMAN DAS
69	JC 44153	Sub	MADAN LAL SHARMA
70	JC 49326	Sub	MADAN LAL VAID
71	JC 50445	Sub	RAM AUTAR
72	JC 44150	Sub	RAM LABHAYA SURI

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

73	JC 37149	Sub	A NARAYANA SAMY
74	JC 16259	Sub	GURBACHAN SINGH
75	JC 39712	Sub	JASWANT SINGH
76	JC 33882	Sub	RAM KISHAN
77	JC 28886	Sub	YAD RAM

ARMY EDUCATIONAL CORPS

78	JC 36107	Sub	AJAIB SINGH
79	JC 19428	Sub	MANI RAM

CORPS OF MILITARY POLICE

80	JC 42904	Sub	GULZAR SINGH
81	JC 42262	Sub	SARJIT SINGH

o be Honorary Risaldars/Subedar

4 ARMoured REGIMENT

1	JC 69875	Nb Ris	HARBANS SINGH
---	----------	--------	---------------

REGIMENT OF ARTILLERY

2	JC 68620	Nb Sub	BARAF SINGH
3	JC 70814	Nb Sub	GURCHARAN SINGH
4	JC 66734	Nb Sub	MAHADEO GHUTNE
5	JC 67607	Nb Sub	SHAMSHER SINGH

MADRAS ENGINEER GROUP

6	JC 41309	Nb Sub	AHMED SHARIF
7	JC 52037	Nb Sub	K AYYAPILLAI

BENGAL ENGINEER GROUP

8	JC 67053	Nb Sub	JAI NARAIN
9	JC 66744	Nb Sub	MOHINDAR SINGH
10	JC 67051	Nb Sub	RAJ DEO TIWARI
11	JC 64675	Nb Sub	RANJIT SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

12	JC 67981	Nb Sub	BAGICHA SINGH
13	JC 47694	Nb Sub	DALIP SINGH
14	JC 50781	Nb Sub	JOGINDAR SINGH
15	JC 50777	Nb Sub	KAKA SINGH
16	JC 55052	Nb Sub	KISHEN SINGH
17	JC 17476	Nb Sub	RAM KISHAN BANSAL
18	JC 50784	N b Sub	VISHRAM UTTEKAR

CORPS OF SIGNALS

19	JC 60637	Nb Sub	ANAND SWARUP
20	JC 68012	Nb Sub	BABU SINGH
21	JC 70287	Nb Sub	BALKRISHAN
22	JC 60708	Nb Sub	BALWANT SINGH
23	JC 62149	Nb Sub	CHANDRA PARKASH SHARMA
24	JC 60252	Nb Sub	CHANDRA SEKHARAN PILLAI G
25	JC 68014	Nb Sub	GANGA RAM
26	JC 60699	Nb Sub	HARI DATT
27	JC 62191	Nb Sub	KM SAMUEL
28	JC 68007	Nb Sub	PRAMOD TOPPO
29	JC 60611	Nb Sub	PURUSHOTAM SINGH
30	JC 53242	Nb Sub	RAGHUNATH SINGH SHARMA
31	JC 53233	Nb Sub	ROMAL SINGH
32	JC 71089	Nb Sub	SEWA SINGH
33	JC 66102	Nb Sub	SHOUQIN SINGH
34	JC 53241	Nb Sub	SULTAN SINGH
35	JC 66110	Nb Sub	T GANGADHARAN
36	JC 70304	Nb Sub	TIRATH RAM

BRIGADE OF THE GUARDS

37	JC 64908	Nb Sub	RAM SINGH
----	----------	--------	-----------

THE PARACHUTE REGIMENT

38	JC 63730	Nb Sub	PAHAL BAHADUR MALL
----	----------	--------	--------------------

THE PUNJAB REGIMENT

39	JC 47586	Nb Sub	AILA RAM
40	JC 41759	Nb Sub	BANTA SINGH
41	JC 44706	Nb Sub	BIDHI CHAND
42	JC 39778	Nb Sub	BISHAN SINGH
43	JC 50499	Nb Sub	CHHAJU RAM
44	JC 46608	Nb Sub	JOGINDER SINGH
45	JC 44741	Nb Sub	NASIB SINGH
46	JC 53990	Nb Sub	PARAKAM SINGH
47	JC 64006	Nb Sub	RINDHER SINGH
48	JC 55540	Nb Sub	SHANKAR DASS

THE MADRAS REGIMENT

49	JC 67162	Nb Sub	BOTHI REDDY SANKA- RAYYA
50	JC 67163	Nb Sub	MANDA JAYACHANDRUDU
51	JC 68753	Nb Sub	N APPUKUTTAN NAIR
52	JC 66924	Nb Sub	VELAPPAN N

THE GRENADIERS

53	JC 39789	Nb Sub	BHAIRON SINGH
54	JC 67564	Nb Sub	MOHAN SINGH
55	JC 48961	Nb Sub	SULTAN SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

56	JC 53914	Nb Sub	SHANTARAM SHINDE
----	----------	--------	------------------

THE RAJPUT REGIMENT

57	JC 59061	Nb Sub	LAL SINGH
58	JC 56406	Nb Sub	MAHABIR PRASAD DHONDYAL
59	JC 71458	Nb Sub	MOTI SINGH
60	JC 67674	Nb Sub	PAHLAD SINGH
61	JC 48826	Nb Sub	RAJU SINGH
62	JC 54060	Nb Sub	RAMPAT SINGH

THE JAT REGIMENT

63	JC 58840	Nb Sub	BHARAT SINGH
64	JC 49503	Nb Sub	SHASHVIR SINGH

THE SIKH REGIMENT

65	JC 57123	Nb Sub	AMAR SINGH
66	JC 50726	Nb Sub	DIWAN SINGH
67	JC 65157	Nb Sub	KARTAR SINGH
68	JC 67690	Nb Sub	NIRANJAN SINGH
69	JC 68134	Nb Sub	SUCHA SINGH
70	JC 53567	Nb Sub	SUJIAN SINGH
71	JC 59025	Nb Sub	TARLOK SINGH

THE DOGRA REGIMENT

72	JC 64582	Nb Sub	JARAM SINGH
73	JC 65701	Nb Sub	JASWANT SINGH, SM
74	JC 58822	Nb Sub	JOGINDAR SINGH
75	JC 66983	Nb Sub	KANSHI RAM
76	JC 65473	Nb Sub	RATTAN CHAND
77	JC 60770	Nb Sub	ROSHAN SINGH
78	JC 64663	Nb Sub	RULIA RAM

THE KUMAON REGIMENT

79	JC 39266	Nb Sub	CHANDER MOHAN SINGH
80	JC 66242	Nb Sub	DAN SINGH
81	JC 51235	Nb Sub	KHAZAN SINGH
82	JC 66583	Nb Sub	NETA NAND
83	JC 70029	Nb Sub	SAMANDAR SINGH
84	JC 64014	Nb Sub	SHEO NARAIN
85	JC 63912	Nb Sub	SHIVENDRA SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES AND LADAKH SCOUTS

86	JC 70461	Nb Sub	PHUNCHOK PALJORE
87	JC 58522	Nb Sub	PURAN SINGH

THE JAMMU AND KASHMIR MILITIA

88	JC 263	Nb Sub	GIAN SINGH
----	--------	--------	------------

1 GORKHA RIFLES

89	JC 61894	Nb Sub	DURGA PARSHAD PRADHAN
90	JC 64277	Nb Sub	TAG BAHADUR PUN
91	JC 65537	Nb Sub	TULBIR SINGH GURUNG

5 GORKHA RIFLES

92	JC 56487	Nb Sub	JABANSINGH PUN
93	JC 52251	Nb Sub	JAHAM PUN
94	JC 52205	Nb Sub	RANBAHADUR GURUNG

8 GORKHA RIFLES

95	JC 67021	Nb Sub	BHAKTABAHADUR GURUNG
96	JC 58957	Nb Sub	KHAKKABAHADUR GURUNG

11 GORKHA RIFLES

97	JC 59957	Nb Sub	HARKA BAHADUR RAI
----	----------	--------	-------------------

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

98	JC 53727	Nb Ris	ANAND SARUP
99	JC 65355	Nb Ris	DHANI RAM

ARMY MEDICAL CORPS

100	JC 51638	Nb Sub	SARAT CHANDRO MAHAPATRO
-----	----------	--------	----------------------------

ARMY ORDNANCE CORPS

101	JC 33048	Nb Sub	DES RAJ
102	JC 66872	Nb Sub	R RAJIAH

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

103	JC 67833	Nb Sub]	BR PUROHIT
104	JC 56728	Nb Sub,	ONKARNATH LATH
105	JC 50674	Nb Sub	PRADIP SINHA
106	JC 69382	Nb Sub	PURUSHOTHAM LAL
107	JC 55646	Nb Sub	SACHITHANAND
108	JC 54536	Nb Sub	SANTOKH SINGH
109	JC 52720	Nb Sub	TN LAKSHMI KANTAN

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

110	RV 7239	Nb Ris	AMAR SINGH
111	RV 7243	Nb Ris	NASIB SINGH

CORPS OF MILITARY POLICE

112	JC 65012	Nb Sub	DAYA NAND
113	JC 65550	Nb Sub	DHARM SINGH

DEFENCE SECURITY CORPS

114	JC 50831	Nb Sub	R SAMI DURAI
-----	----------	--------	--------------

सं० 4-ई, दिनांक 22 जनवरी 1976.—राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 1976) के अवसर पर निम्नलिखित एन सी ओस को उनके अवकाश ग्रहण करने पर सेना विनियमावली 1962 के पैरा 181 के आधीन अवैतनिक नायब रिसालदार/नायब सूबेदार का पद प्रदान करते हैं :-

श्री प्रजिबेंद्र बाड़ीगाई

1	13700096	दफादार	सरहूल सिंह
---	----------	--------	------------

16 केवलरी

2	1023334	दफादार	ए पी थंकाप्पन नायर
---	---------	--------	--------------------

7 केवलरी

3	1022972	दफादार	दीपत सिंह
---	---------	--------	-----------

8 केवलरी

4	1017191	दफादार	बलजोर सिंह
---	---------	--------	------------

1 हार्स

5	1022633	दफादार	मकखन सिंह
---	---------	--------	-----------

2 लॉसर्स

6	1023211	दफादार	गदा सिंह
7	1023051	दफादार	किशन लाल

17 हार्स

8	1019765	दफादार	जोगा सिंह
---	---------	--------	-----------

9 हार्स

9	1024152	दफादार	सतोख सिंह
---	---------	--------	-----------

14 हार्स

10	1023259	दफादार	हरचंद सिंह
11	1019556	दफादार	मेहदोर सिंह

3 केवलरी

12	1023429	दफादार	राम सिंह
----	---------	--------	----------

16 केवलरी

13	1023192	दफादार	मनोहर सिंह.
----	---------	--------	-------------

4 हार्स

14	1022430	दफादार	फकीर सिंह
----	---------	--------	-----------

बी सेन्ट्रल इण्डिया हार्स

15	1023275	दफादार	जनम चंद
----	---------	--------	---------

20 लॉसर्स

16	1023024	दफादार	प्रहलाद सिंह
----	---------	--------	--------------

63 केवलरी

17	1021908	दफादार	गुरधरन सिंह
----	---------	--------	-------------

61 केवलरी

18	1023169	दफादार	अम्बर सिंह
----	---------	--------	------------

64 केवलरी

19	1023263	दफादार	बुधा सिंह
----	---------	--------	-----------

67 ग्राम ई रेजिमेंट

20	1019643	दफादार	सेवा सिंह
----	---------	--------	-----------

69 ग्राम ई रेजिमेंट

21	1022231	दफादार	शुम्मा खान
----	---------	--------	------------

72 ग्रामंड रेजिमेंट

22	1023236	दफादार	रामप्रघार सिंह
----	---------	--------	----------------

75 ग्रामंड रेजिमेंट

23	1023217	दफादार	विजय सिंह
----	---------	--------	-----------

ग्रामंड कोर

24	1023321	दफादार	पद्माकर सिंह
----	---------	--------	--------------

रेजिमेंट ग्राफ ग्राटिलरी

25	1140862	हवलदार	अमीर सिंह
26	1140646	हवलदार	अरुमुधम
27	2542460	हवलदार	अर्याप्पन
28	1140953	हवलदार	बालाराम
29	1141046	हवलदार	बालीराम सिंह
30	1140158	हवलदार	बनवा ी लाल
31	9202019	हवलदार	बसवतप्पा देवन कोंड
32	1140940	हवलदार	भगत राम शर्मा
33	1140539	हवलदार	ब्रिष्व नाथ राम
34	3945435	हवलदार	बोध राज
35	1140405	हवलदार	सी सिरीधरन नायर
36	1140017	हवलदार	चाको थोमस
37	6587226	हवलदार	चदन सिंह
38	2943417	हवलदार	चावद सिंह
39	1140057	हवलदार	चोला बेकन्ना
40	3945410	हवलदार	दयाराम
41	1140187	हवलदार	देविन्दर नाथ
42	1140109	हवलदार	देवी सिंह राठौर
43	1141160	हवलदार	जी अलगार
44	9201946	हवलदार	गनपति बाबू पाटिल
45	1134558	हवलदार	गोविन्द राम
46	1135522	हवलदार	गुलजारी लाल
47	1140978	हवलदार	हरफूल सिंह
48	1131730	हवलदार	होशियार सिंह
49	1141379	हवलदार	इंदल सिंह
50	1140751	हवलदार	अगदीश सिंह
51	1139943	हवलदार	अगतार सिंह
52	1132935	हवलदार	असवंत सिंह
53	1140996	हवलदार	जोगिन्दर सिंह
54	1140595	हवलदार	जोगिन्दर सिंह
55	1140747	हवलदार	जोगिन्दर सिंह

56	2539778	हवलदार	के माधवन नाम्बियर
57	2542542	हवलदार	के पोक्कन
58	1141140	हवलदार	के सी राजू
59	2542359	हवलदार	के जे जोसफ
60	1096007	हवलदार	कल्याण सिंह
61	3944788	हवलदार	करनैल सिंह
62	1140915	हवलदार	केदार नाथ
63	1140970	हवलदार	खड़क सिंह
64	1139728	हवलदार	कृष्ण एम
65	1140817	हवलदार	कुन्दन सिंह
66	1140990	हवलदार	लाल सिंह
67	3342524	हवलदार	लक्ष्मण सिंह
68	1141146	हवलदार	एम पी बासु कुट्टन
69	3943051	हवलदार	महंत राम
70	1131963	हवलदार	मित्तर सेन
71	2542445	हवलदार	एन चन्नाशेखरन नायर
72	1140832	हवलदार	एन जयारामदेव मदयस्ता
73	1139925	हवलदार	ओम वर्गिज
74	2539841	हवलदार	पी पेरुमल
75	1140682	हवलदार	पी रथना स्वामी
76	2539820	हवलदार	पी के राधवन पिल्लै
77	1140082	हवलदार	पी एस बासुदेवन पिल्लै
78	1140896	हवलदार	परगत सिंह
79	1141085	हवलदार	परमा नंद
80	9201770	हवलदार	परशोतम सिंह
81	1139827	हवलदार	प्रहलाद वत्त शर्मा
82	1141255	हवलदार	पुरशोतमन इलायावम
83	2539866	हवलदार	पुबाला वीर राज
84	3342858	हवलदार	प्यार सिंह
85	1140454	हवलदार	रघबीर सिंह
86	1140639	हवलदार	राज कुमार सिंह जादव
87	6347599	हवलदार	राम बहादुर सिंह
88	1140936	हवलदार	राम चन्दर
89	1140207	हवलदार	राम कंवर
90	1139832	हवलदार	राम केसर
91	1139750	हवलदार	राम प्रसाद
92	1140062	हवलदार	रंग बहादुर सिंह यादव
93	1139595	हवलदार	रंगनाथ गोटे
94	3945419	हवलदार	रोशन सिंह
95	1140947	हवलदार	एस मारी अल्लुस बोस
96	2537961	हवलदार	एस समपथ

97	1141452	हवलदार	एस एस चैगप्पा
98	1140808	हवलदार	सद्दा सिंह
99	1140491	हवलदार	सालविन्दर सिंह
100	9201778	हवलदार	सरबजीत राय
101	3342752	हवलदार	सरजीत सिंह
102	1140347	हवलदार	शिगारा सिंह
103	1139280	हवलदार	शिष नारायन
104	1140649	हवलदार	श्रीरंग खामवे
105	3945401	हवलदार	शोभा राम
106	3945301	हवलदार	सुखदेव सिंह
107	1140556	हवलदार	सुब्रामनियम इलिये
108	1139705	हवलदार	टी पी चन्द्रा शेखरन
109	1140228	हवलदार	तारा चंद
110	1205093	हवलदार	तेज राम
111	1140406	हवलदार	तुला राम यादव
112	1140366	हवलदार	वेनू गोपालन नायर पी

अन्नास इंजीनियर ग्रुप

113	1311232	हवलदार	ए आशाकेसन
114	1310947	हवलदार	ए वृष्णन
115	1310960	हवलदार	अरुमुगम
116	1310806	हवलदार	बी बेलार्ड
117	1310796	हवलदार	इथीराज
118	1313090	हवलदार	जे पोन्नाप्पन
119	1311206	हवलदार	के रामाचन्द्रन
120	1313147	हवलदार	के बी करुनाकरन
121	1312915	हवलदार	के यू चुम्मर
122	1310954	हवलदार	के सी एन राजम
123	1312878	हवलदार	एम कनकराज
124	1310808	हवलदार	एम कानन
125	1310873	हवलदार	मुनीस्वामी
126	1313215	हवलदार	पी आई लेजरस
127	1313166	हवलदार	प्रार पेरियास्वामी
128	1313153	हवलदार	टी थम्मियाप्पन
129	1310870	हवलदार	वी के सी समथराज
130	1313038	हवलदार	वेल्लाय्यन

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

131	1419974	हवलदार
132	1418930	हवलदार
133	1418920	हवलदार

134	1419641	हवलदार	दान सिंह
135	1419546	हवलदार	गोपाल सिंह
136	1419922	हवलदार	गुरदयाल सिंह
137	1419797	हवलदार	जसवन्त सिंह
138	1419946	हवलदार	कृष्ण सिंह
139	1419229	हवलदार	महेशा नन्द
140	1419580	हवलदार	राम सिंह
141	1409601	हवलदार	राम सुचित राम
142	1409379	हवलदार	सत्य प्रसाद
143	1409611	हवलदार	सुखदेव सिंह

बोम्बे इंजीनियर पुप

144	1510697	हवलदार	अमर सिंह
145	1562094	हवलदार	अनंत कदम
146	1562192	हवलदार	अप्पासाहिब बोडे
147	1510694	हवलदार	भाग सिंह
148	1510544	हवलदार	भाग सिंह
149	1510749	हवलदार	भीवाजी सूखे
150	1510639	हवलदार	भोम सिंह
151	1562226	हवलदार	दलबीर सिंह
152	1562110	हवलदार	दर्शन सिंह
153	1510007	हवलदार	दीना नाथ तिवारी
154	1510074	हवलदार	गुरबचन सिंह
155	1562113	हवलदार	गुरदेभो सिंह
156	1562078	हवलदार	गुरमेल सिंह
157	1510026	हवलदार	करम पाल सिंह
158	1510852	हवलदार	मोहन सिंह
159	1562233	हवलदार	रधुनाथ मोरे
160	1562177	हवलदार	राजाराम जगताप
161	1510677	हवलदार	रामाकृष्ण नायर
162	1510711	हवलदार	रामचन्द्रा धोरपाडे
163	1510674	हवलदार	साखाराम मोरे
164	1510851	हवलदार	सरदारा सिंह
165	1510648	हवलदार	शांतिराम जाधव
166	1562121	हवलदार	शांतिराम पालडे
167	1510164	हवलदार	सुरजीत सिंह
168	1562167	हवलदार	सुरमुख सिंह
169	1510828	हवलदार	सरसेम सिंह
170	1510538	हवलदार	वसंत कृष्णा कदम
171	1510078	हवलदार	विशराम जुबेकर
172	1510393	हवलदार	यशवंत निकम

कोर ग्राफ सिगनल्स

173	6266800	हवलदार	अन्नप्पा बलवंत चिचवाडे
174	6266562	हवलदार	अवधेश नारायण त्रिपाठी
175	6266491	हवलदार	बाबू राम शर्मा
176	6269491	हवलदार	बचन सिंह राना
177	6267074	हवलदार	बाध सिंह
178	6262525	हवलदार	बशी राम
179	6267257	हवलदार	बालाकृष्णन नायर
180	6267228	हवलदार	बलदेव सिंह
181	6266789	हवलदार	सी थोमस
182	6267237	हवलदार	षतर सिंह
183	6267077	हवलदार	चाऊ खान
184	6266846	हवलदार	छोटू राम
185	6266313	हवलदार	चितामन जोशी
186	6267112	हवलदार	दयाल सिंह
187	6266025	हवलदार	ध्यान सिंह बिष्ट
188	6267126	हवलदार	गंगाधरन नायर
189	6267534	हवलदार	ज्ञान सिंह
190	6262648	हवलदार	हुय राज
191	6267383	हवलदार	जयकरन नाथ जोशी
192	6266757	हवलदार	जसवंत सिंह
193	6267532	हवलदार	के कुट्टो कृष्णन नम्बियार
194	6266383	हवलदार	कन्हू राम
195	6266086	हवलदार	कोकिल कांता सिन्हा
196	6266803	हवलदार	कृष्ण दत्त
197	6262686	हवलदार	कृष्ण लाल
198	6266749	हवलदार	माधो सिंह
199	6267136	हवलदार	महाराज सिंह
200	4139847	हवलदार	मोहन सिंह
201	6266827	हवलदार	नगेन्द्रनाथ तिवारी
202	6266998	हवलदार	नानक चंद
203	6264050	हवलदार	नारायण सिंह परमार
204	6266920	हवलदार	पिरथी सिंह
205	6266630	हवलदार	प्रेम सिंह
206	6267119	हवलदार	रामेश्वर
207	6266900	हवलदार	रामनरेश मिश्रा
208	6267082	हवलदार	राम सिंहासन सिंह
209	6266990	हवलदार	राम सुन्दर सिंह
210	6266488	हवलदार	रोशन लाल
211	6267436	हवलदार	रोशन लाल
212	6267148	हवलदार	एस परमाध्यालन

213	6266118	हवलदार	एस थंगाराज
214	6266290	हवलदार	संत प्रसाद
215	6266670	हवलदार	श्री रंग गोर
216	6266076	हवलदार	सोदागर सिंह
217	6265945	हवलदार	सुधीर कुमार चाकी
218	6266253	हवलदार	सुन्दर सिंह
219	6265745	हवलदार	सुशील कुमार

बी पैराग्राफ रेजीमेंट

220	4142102	हवलदार	घन सिंह
221	2542561	हवलदार	पी पदमानाभन

बी पंजाब रेजीमेंट

222	2438333	हवलदार	चरन सिंह
223	2438942	हवलदार	इन्दर सिंह
224	2438917	हवलदार	मलमल सिंह
225	2438947	हवलदार	जीत सिंह
226	2439041	हवलदार	जोधरा राम
227	2438951	हवलदार	जोगिन्दर सिंह
228	2438963	हवलदार	मोहन सिंह
229	3945362	हवलदार	निर्मल सिंह
230	2438812	हवलदार	प्रभु राम
231	2438888	हवलदार	परशोतम सिंह
232	2439039	हवलदार	राम सरूप
233	2438770	हवलदार	सखन सिंह
234	2439100	हवलदार	शाम सिंह
235	2438995	हवलदार	उत्तम चंद

बी मद्रास रेजीमेंट

236	9202010	हवलदार	ए असिरघास
237	2542629	हवलदार	ए सुब्बाइया
238	2539569	हवलदार	सी नरयनन नायर
239	2542599	हवलदार	सी बेलायुधन नायर
240	2539604	हवलदार	के केशवन नायर
241	2542613	हवलदार	के आर पेरिमानायगम
242	2539951	हवलदार	एम नटेशन
243	2539590	हवलदार	मोलेटी वासुदेवामूर्ति
244	2542485	हवलदार	एस मोहन
245	2539490	हवलदार	शेख अहमद
246	2542628	हवलदार	टी रामास्वामी
247	2539487	हवलदार	टी के कोबुप्पी
248	2539512	हवलदार	वी एम गनेसन

बी प्रिन्सिपलरस

249	2639785	हवलदार	बाबा राम
250	2639865	हवलदार	धनन्तर सिंह
251	2639671	हवलदार	हरी सिंह
252	13406551	हवलदार	हरनाथ सिंह
253	2639626	हवलदार	हीरा सिंह
254	2639706	हवलदार	इन्दर सिंह
255	2639512	हवलदार	जय चंद
256	2639540	हवलदार	कपूर सिंह
257	2639637	हवलदार	केहर सिंह
258	2639744	हवलदार	खुशी राम
259	2639522	हवलदार	नफे सिंह
260	2639708	हवलदार	नेत राम
261	2639557	हवलदार	राम कुमार सिंह
262	2639731	हवलदार	रत्न सिंह

बी मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

263	2739126	हवलदार	अर्जुन डालवी
264	2739318	हवलदार	बाबाजी एंरे
265	2739527	हवलदार	बाबू कदम
266	2739492	हवलदार	बाहनुदास भारेकर
267	2739383	हवलदार	भगवत अर्जुन सावत
268	2739310	हवलदार	भीमराव गानगाते
269	2739835	हवलदार	दिनकर पाटिल
270	2739216	हवलदार	काशीनाथ पावसे
271	2739178	हवलदार	खाजा मोइनुद्दीन
272	2739426	हवलदार	खांडू अश्वद
273	2739141	हवलदार	लक्ष्मण घोरपाडे
274	2739167	हवलदार	मास्ती गनपती शवान
275	2739458	हवलदार	नारायण चालके
276	2739153	हवलदार	राजाराम देसाई
277	2739169	हवलदार	शंकर कस्तूरी
278	2739136	हवलदार	शांताशाम अम्बरे
279	2739181	हवलदार	शांता राम घाग
280	2739827	हवलदार	विश्वनाथ घुले

बी राजपूताना राइफल्स

281	2843206	हवलदार	अजीत सिंह
282	2842808	हवलदार	अश्व विहारी सिंह
283	2842902	हवलदार	बहादुर सिंह

284	2842563	हवलदार	बीरबल राम
285	2842797	हवलदार	छबी नाथ सिंह
286	2842701	हवलदार	वया नंद राम
287	2842776	हवलदार	जगदेप्रो सिंह
288	2842950	हवलदार	जोराधर राम
289	2840666	हवलदार	मगेज सिंह
290	2843096	हवलदार	मेघ सिंह
291	2842711	हवलदार	पेम सिंह
292	2842726	हवलदार	राम चन्द्र
293	2842690	हवलदार	राम सिंह
294	2842631	हवलदार	रावत सिंह
295	2833066	हवलदार	रूप सिंह
296	2840667	हवलदार	सज्जन सिंह राम
297	2842766	हवलदार	श्री पाल सिंह

बी राजपूत रेजिमेंट

298	2943682	हवलदार	देस राज
299	2943780	हवलदार	देवी दास चौधरी
300	2942612	हवलदार	हरी नाथ सिंह
301	2943696	हवलदार	हेम सिंह
302	2943782	हवलदार	काशी राम
303	2943529	हवलदार	खुशाल सिंह
304	2943677	हवलदार	पेम सिंह
305	2943519	हवलदार	राम बली सिंह
306	2943785	हवलदार	यशपाल सिंह

बी जाट रेजिमेंट

307	3343060	हवलदार	अवतार सिंह
308	3140304	हवलदार	बलवत सिंह
309	3140289	हवलदार	भाना
310	3140416	हवलदार	भीम सिंह
311	3140437	हवलदार	चन्द्र सैन
312	3140413	हवलदार	दया राम
313	3140419	हवलदार	दीन राम
314	3140357	हवलदार	गोगन राम
315	3140365	हवलदार	हनुमान प्रसाद
316	3140162	हवलदार	हरी राज सिंह
317	3140287	हवलदार	होशियार सिंह
318	2438768	हवलदार	नेत राम
319	3140165	हवलदार	रतबीर सिंह
320	2438494	हवलदार	शिव चंद सिंह
321	3140329	हवलदार	विशनु वस्त वर्मा

बी सिख रेजिमेंट

322	3343020	हवलदार	अजमेर सिंह
323	3342850	हवलदार	अर्जन सिंह
324	3343002	हवलदार	बलदेव सिंह
325	3342874	हवलदार	चैन सिंह
326	3342911	हवलदार	दर्शन सिंह
327	3342886	हवलदार	गुरदेव सिंह
328	3342979	हवलदार	गुरमेज सिंह
329	3342846	हवलदार	हरनेक सिंह
330	3342974	हवलदार	हजूर सिंह
331	3343093	हवलदार	जरनल सिंह
332	3342909	हवलदार	लखवत सिंह
333	3343163	हवलदार	रछपाल सिंह
334	3342902	हवलदार	राम सिंह
335	3343059	हवलदार	रेशम सिंह
336	3343041	हवलदार	सुच्चा सिंह
337	3342995	हवलदार	त्रिलोक सिंह

बी सिख लाइट इन्फैंट्री

338	4435537	हवलदार	दलीप सिंह
339	4434365एन	एन हवलदार	दर्शन सिंह
340	4435839डब्ल्यू	डब्ल्यू हवलदार	गुरनाम सिंह
341	4435822एच	एच हवलदार	जीत सिंह
342	4435764के	के हवलदार	करपाल सिंह
343	4435463	हवलदार	करतार सिंह
344	4435750के	के हवलदार	निर्भय सिंह
345	4435834एक्स	एक्स हवलदार	परसा सिंह
346	4435752पी	पी हवलदार	प्यारा सिंह
347	4435755एच	एच हवलदार	खडू सिंह
348	4435828के	के हवलदार	सुर्जन सिंह

बी डोगरा रेजिमेंट

349	3945661	हवलदार	अनिरुध चंद
350	3945279	हवलदार	बलदेव सिंह
351	3945395	हवलदार	बलवत सिंह
352	3934035	हवलदार	भगत राम
353	3935025	हवलदार	बोर सिंह
354	3945331	हवलदार	बुद्धि राम
355	3945506	हवलदार	दिवान सिंह
356	3945544	हवलदार	गन्दर्भ सिंह

357	3935532	हवलदार	हुकम चंद
358	3933626	हवलदार	जय सिंह
359	3941785	हवलदार	जयश्री राम
360	3945684	हवलदार	जेत राम
361	3945574	हवलदार	झंडा सिंह
362	3945695	हवलदार	कमर सिंह जमवाल
363	3945433	हवलदार	करम सिंह
364	3945564	हवलदार	कश्मीर सिंह
365	3945311	हवलदार	राम सिंह
366	3945305	हवलदार	रमेल सिंह
367	3945559	हवलदार	रिखी राम
368	3945332	हवलदार	सुग्रीव चंद
369	3945194	हवलदार	सरबीज सिंह

बी गढ़वाल राइफल्स

370	4035471	हवलदार	बालम सिंह
371	4035378	हवलदार	गोबिन्द सिंह जगी
372	4035435	हवलदार	गुन्डर सिंह नेगी
373	4035533	हवलदार	जगदीश सिंह गुसाई
374	4035611	हवलदार	जगमोहन प्रसाद शुक्ला
375	4035147	हवलदार	जय सिंह दानू
376	4035528	हवलदार	लछमन सिंह बिष्ट
377	4035215	हवलदार	पूरन सिंह काठेत
378	4035532	हवलदार	रघुबीर सिंह बिष्ट
379	4035545	हवलदार	सक्ती प्रसाद जोशी
380	4035201	हवलदार	शेप सिंह बिस्ट

बी कुमाऊं रेजिमेंट

381	4141822	हवलदार	अतर सिंह
382	4141810	हवलदार	बची सिंह
383	4141821	हवलदार	देवप्रोकी नंद पंत
384	4142060	हवलदार	धर्म सिंह चौहान
385	4141973	हवलदार	गोपाल सिंह
386	4141462	हवलदार	मिनतराज सिंह
387	4141867	हवलदार	मोहन सिंह धापोला
388	4141790	हवलदार	नारायण सिंह
389	4141727	हवलदार	पूरन मल
390	4141988	हवलदार	सरदार सिंह यादव
391	4141991	हवलदार	शिव सिंह

बी बिहार रेजिमेंट

392	4235345	हवलदार	देवा कच्छप
393	4235229	हवलदार	जगर नाथ तिवारी
394	4235224	हवलदार	कबीलास सिंह
395	4235315	हवलदार	भंगरा मुंडा
396	4235286	हवलदार	राज बली सिंह
397	4235223	हवलदार	सिरका जोजो

बी महार रेजिमेंट

398	9201853	हवलदार	बलवंत सिंह
399	4533862	हवलदार	भगवान लोखंडे
400	4534600	हवलदार	दत्तातरे चवान
401	5334067	हवलदार	धन बहादुर थापा
402	9202537	हवलदार	हौमला प्रसाद
403	4534278	हवलदार	कल्लाप्पा कुरने
404	9202315	हवलदार	लाल सिंह
405	4141740	हवलदार	मान सिंह
406	9202453	हवलदार	पिरथी सिंह
407	9201710	हवलदार	प्रेम चंद
408	4035171	हवलदार	श्याम सिंह रावत
409	4533720	हवलदार	वसंत टिप्पा काम्बले
410	4534220	हवलदार	विश्वनाथ डाकरे
411	4534927	हवलदार	यशवंत काम्बले

बी जम्मू एण्ड काश्मीर राइफल्स और लहाख स्काउट्स

412	13713598	हवलदार	आज्ञा राम
413	9100885	हवलदार	गुलाम मूस्तफा
414	9100879	हवलदार	तुनदुप गुनबो

बी नागा रेजिमेंट

415	4142090	हवलदार	त्रिलोक चंद
-----	---------	--------	-------------

बी जम्मू एण्ड काश्मीर मिलिशिया

416	9092878	हवलदार	गांधी लाल
417	9106099	हवलदार	मन्खन लाल
418	9092933	हवलदार	मोहम्मद हाफिज
419	9106275	हवलदार	नाहर सिंह
420	9093015	हवलदार	शेख गुलाम अहमद

1 गोरखा राइफलस

421	5032170	हवलदार	बलदेव सिंह थापा
422	5032189	हवलदार	इमान बहादुर गुरग
423	5032186	हवलदार	नर बहादुर गुरग
424	5735707	हवलदार	पदम बहादुर तमग
425	5032180	हवलदार	रतन बहादुर छेत्री
426	5031834	हवलदार	सुरेन्द्र सिंह बुरा

3 गोरखा राइफलस

427	5232872	हवलदार	मन बहादुर थापा
-----	---------	--------	----------------

4 गोरखा राइफलस

428	5333640	हवलदार	मनहोर सिंह बुरा
429	5333668	हवलदार	सोबीर थापा
430	5333655	हवलदार	सुखु राम थापा

5 गोरखा राइफलस

431	5434936	हवलदार	देओबहादुर पुन
432	5435059	हवलदार	खड्क सिंह गुरग
433	5434893	हवलदार	तकबहादुर राना

8 गोरखा राइफलस

434	5735774	हवलदार	भीमबहादुर थापा
435	5735741	हवलदार	गोबिन्द सिंह राना
436	5735763	हवलदार	मनबहादुर थापा
437	5735800	हवलदार	नारायण सिंह ठाकुरी
438	5735812	हवलदार	पहल सिंह थापा
439	5735817	हवलदार	टिकाबहादुर थापा

9 गोरखा राइफलस

440	5833429	हवलदार	बिशना बहादुर साही
-----	---------	--------	-------------------

11 गोरखा राइफलस

441	9403381	हवलदार	विजय बहादुर लिम्बु
442	9403373	हवलदार	बीर बहादुर लिम्बु
443	9403356	हवलदार	रत बहादुर लिम्बु

ग्रामीं सर्विस कोर (सप्लाई)

444	1138304	हवलदार	डडापानी भट्टाचारजिया
445	1138611	हवलदार	कृष्णा देशपांडे
446	6347271	हवलदार	लक्ष्मन जावव
447	6347417	हवलदार	लक्ष्मन शाहाने
448	6588360	हवलदार	एम बी गंगाधरन
449	6346832	हवलदार	राम दीन
450	7130636	हवलदार	टी पाल

ग्रामीं सर्विस कोर (एनिमल ट्रांसपोर्ट)

451	6443099	दफादार	यागी सिंह
-----	---------	--------	-----------

ग्रामीं सर्विस कोर (मकेनिकल ट्रांसपोर्ट)

452	6583622	हवलदार	फते चंद
453	6588451	हवलदार	खेमाजी जयाभाये
454	6587596	हवलदार	प्रिथि सिंह
455	6587369	हवलदार	रत्न सिंह

ग्रामीं मेडिकल कोर

456	6783245	हवलदार	हरी शंकर सिंह
457	6783349	हवलदार	मनोहर
458	6783281	हवलदार	पी बी गोविन्दन नम्बियार

ग्रामीं आर्डनेन्स कोर

459	6866645	हवलदार	बी चक्रापानी
460	6866781	हवलदार	भवर सिंह वर्मा
461	6861415	हवलदार	परिमल कुमार भट्टाचारजी

कोर आफ हेल्विटेड एण्ड मकेनिकल इंजीनियरस

462	1310126	हवलदार	ए नटराजन
463	7028595	हवलदार	अब्दुल रहमान
464	7027291	हवलदार	बालेश्वर सिंह
465	7027876	हवलदार	विपिन चन्द्र शुक्ला
466	7028290	हवलदार	श्रीधरया
467	7009340	हवलदार	दलमिन्दर सिंह
468	7027305	हवलदार	फौजा सिंह
469	7027986	हवलदार	गोविन्द सिंह
470	7008748	हवलदार	गुरबचन सिंह
471	7027366	हवलदार	हरिन्दर सिंह
472	7028411	हवलदार	जगत सिंह
473	7026815	हवलदार	के ए गनपथि
474	7027908	हवलदार	के टी जैकब

475	7027370	हवलदार	करम चंद
476	7027738	हवलदार	खड्क सिंह
477	7028382	हवलदार	लछमन सिंह परमार
478	7028139	हवलदार	एम ए दास
479	7025473	हवलदार	मधब चन्द्रा डे
480	7027471	हवलदार	माशति गोडके
481	7027342	हवलदार	नरेन्द्र नाथ चौधरी
482	7026668	हवलदार	पी एन रवीन्द्रनाथन
483	7027910	हवलदार	प्रताप सिंह
484	7028418	हवलदार	प्रेम सिंह
485	7027705	हवलदार	तृवी सिंह
486	7027977	हवलदार	शार मुथु रामन
487	7028205	हवलदार	राम श्रासरा
488	7027798	हवलदार	सिआमलिआना लुशाई
489	7029160	हवलदार	सुजैन सिंह
490	7008298	हवलदार	टी डी भाराधनन नम्बियार
491	7013095	हवलदार	तिरलोक सिंह
492	7027012	हवलदार	बी सी कलीटस
493	7028052	हवलदार	बसंत पोंकोशे
494	11142267	हवलदार	बसंत यादवराव पाटिल
495	7027158	हवलदार	विश्व सकपाल

रिमाउंट एण्ड वेंटरनरी कोर

496	7230220	वकादार	अजीत सिंह
-----	---------	--------	-----------

आर्मी एजुकेशनल कोर

497	3343166	हवलदार	अजीत सिंह
498	6587377	हवलदार	गोबिन्द सिंह
499	1023195	हवलदार	जगदीश प्रसाद सिंह
500	4142085	हवलदार	मथुरा दत्त
501	6866606	हवलदार	मुंशी लाल
502	4141767	हवलदार	रिसाल सिंह

वी इंटेलिजेंस कोर

503	1023527	हवलदार	कश्मीर सिंह
504	6588205	हवलदार	वामन शंगले

कोर ग्राफ मिलिट्री पुलिस

505	2740214	हवलदार	मजानन बालू फादतरे
506	1023464	हवलदार	गोपाल कुण्ठा पिल्लै
507	6587530	हवलदार	जगत सिंह

508	3945632	हवलदार	जुल्फी राम
509	5333146	हवलदार	केसर बहादुर गुरग
510	4035639	हवलदार	मूर्ति लाल बहुगुना
511	3140308	हवलदार	उमेश सिंह

आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर

512	6267524	सीएचएम	के के भामकरन नाथर
513	3943053	सीएचएम	रोजन लाल
514	4035476	सीएचएम	उमेश सिंह नेगी
515	6587451	हवलदार	गुलाब चंद

बी पाइनिथर कोर

516	4435896	हवलदार	भजन सिंह
517	6230129	हवलदार	के श्वेता दास
518	7960594	हवलदार	मेकाले

डिफेंस सिविलियरिटी कोर

519	8794656	हवलदार	बालू भोसले
520	8796563	हवलदार	संत राम
521	8802256	हवलदार	सिंगरूप सिंह नेगी

No. 4-E, dated 22nd January 1976.—The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement under Para 181 of the Regulations for the Army, 1962:—

THE PRESIDENT'S BODYGUARDS

1	13700096	DFR	SARDUL SINGH
16	CAVALRY		
2	1023334	DFR	AP THANKAPPAN NAIR
7	CAVALRY		
3	1022972	DFR	DAULAT SINGH
3	CAVALRY		
4	1017191	DFR	BALJOR SINGH
1	HORSE		
5	1022633	DFR	MAKHAN SINGH
2	LANCERS		
6	1023211	DFR	GAINDA SINGH
7	1023051	DFR	KISHAN LAL
17	HORSE		
8	1019765	DFR	JOGA SINGH

9 HORSE			
9	1024152	DFR	SANTOKH SINGH
14 HORSE			
10	1023259	DFR	HARCHAND SINGH
11	1019556	DFR	MAHENDOR SINGH
3 CAVALRY			
12	1023429	DFR	RAM SINGH
18 CAVALRY			
13	1023192	DFR	MANOHAR SINGH
4 HORSE			
14	1022430	DFR	FAQIR SINGH
THE CENTRAL INDIA HORSE			
15	1023275	DFR	JANAM CHAND
20 LANCERS			
16	1023024	DFR	PRAHLAD SINGH
63 CAVALRY			
17	1021908	DFR	GURCHARAN SINGH
61 CAVALRY			
18	1023169	DFR	AMBAR SINGH
64 CAVALRY			
19	1023263	DFR	BUDHA SINGH
67 ARMoured REGIMENT			
20	1019643	DFR	SEWA SINGH
69 ARMoured REGIMENT			
21	1022231	DFR	JUMMA KHAN
72 ARMoured REGIMENT			
22	1023236	DFR	RAMADHAR SINGH
75 ARMoured REGIMENT			
23	1023217	DFR	VIJAY SINGH
ARMoured CROPS			
24	1023321	DFR	PAPMAKAR SINGH

REGIMENT OF ARTILLERY

25	1140862	Hav	AMIR SINGH
26	1140616	Hav	ARUMUGHAM
27	2542460	Hav	AYYAPPAN
28	1140953	Hav	BALA RAM
29	1141046	Hav	BALI RAM SINGH
30	1140158	Hav	BANWARI LAL
31	9202019	Hav	BASVANTAPPA DEVAN KOND
32	1140940	Hav	BHAGAT RAM SHARMA
33	1140539	Hav	BISHWA NATH RAM
34	3945435	Hav	BODH RAJ
35	1140405	Hav	C SRLEDHARAN NAIR
36	1140017	Hav	CHACKO THOMAS
37	6587226	Hav	CHANDAN SINGH
38	2943417	Hav	CHAWAND SINGH
39	1140057	Hav	CHOLLA VENKANNA
40	3945410	Hav	DAYA RAM
41	1140187	Hav	DEVINDER NATH
42	1140109	Hav	DEVI SINGH RATHORE
43	1141160	Hav	G ALAGAR
44	9201946	Hav	GANPATI BABU PATIL
45	1134558	Hav	GOBIND RAM
46	1135522	Hav	GULZARI LAL
47	1140978	Hav	HARPHOOL SINGH
48	1131730	Hav	HOSHAR SINGH
49	1141379	Hav	INDAL SINGH
50	1140751	Hav	JAGDISH SINGH
51	1139943	Hav	JAGTAR SINGH
52	1132935	Hav	JASWANT SINGH
53	1140996	Hav	JOGINDAR SINGH
54	1140595	Hav	JOGINDER SINGH
55	1140747	Hav	JOGINDER SINGH
56	2539778	Hav	K MADHAVAN NAMBIAR
57	2542542	Hav	K POKKAN
58	1141140	Hav	KC RAJU
59	2542359	Hav	KJ JOSEPH
60	1096007	Hav	KALYAN SINGH
61	3944788	Hav	KARNAIL SINGH}
62	1140915	Hav	KEDAR NATH
63	1140970	Hav	KHARAK SINGH
64	1139728	Hav	KRISHNAN M
65	1140817	Hav	KUNDAN SINGH
66	1140990	Hav	LAL SINGH
67	3342524	Hav	LASHKAR SINGH
68	1141146	Hav	MP VASU KUTTAN
69	3943051	Hav	MAHANT RAM
70	1131963	Hav	MITTAR SAIN
71	2542445	Hav	N CHANDRASEKHARAN NAIR
72	1140832	Hav	N JAYARAMDEVA MADI- YASTA
73	1139925	Hav	OM VAREGHESE
74	2539841	Hav	P PERUMAL
75	1140662	Hav	P RATHANA SWAMY
76	2539820	Hav	PK RAGHAVAN PILLAY
77	1140082	Hav	PS VASUDEVAN PILLAI
78	1140896	Hav	PARGAT SINGH
79	1141085	Hav	PARMA NAND
80	9201770	Hav	PARSHOTAM SINGH
81	1139827	Hav	PRAHLAD DATT SH ARM
82	1141255	Hav	PURUSHOTTAMAN ELAY- ADAM
83	2539866	Hav	PUVVALA VEER RAJU
84	3342858	Hav	PYAPA SINGH
85	1140454	Hav	RAGHBIR SINGH
86	1140639	Hav	RAJ KUMAR SINGH JADAWA
87	6347599	Hav	RAM BAHADUR SINGH YADAV

88	114 926	Hav	RAM CHANDER
89	1140207	Hav	RAM KANWAR
90	1139832	Hav	RAM KLSAR
91	1139750	Hav	RAM PARSAD
92	1140062	Hav	RANG BAHADUR SINGH YADAV
93	1139595	Hiv	RANGNATH GOTE
94	3945419	Hav	ROSHAN SINGH
95	1140947	Hiv	S MARI ARUL DOSS
96	2537961	Hav	S SAMPATH
97	1141452	Hav	SS CHENGAPPA
98	1140808	Hav	SADDA SINGH
99	1140491	Hav	SALVINDER SINGH
100	9201778	Hav	SAR VJIT RAI
101	3342752	Hav	SARIT SINGH
102	1140347	Hav	SHINGARA SINGH
103	1139280	Hiv	SHIV NARAIN
104	1140649	Hav	SHIRANG KHAMBE
105	3945401	Hav	SOBHA RAM
106	3945301	Hav	SUKHDEV SINGH
107	1140556	Hav	SUBRAHMANYAM ELIPE
108	1139705	Hav	TP CHANDRA SEKHARAN
109	1140228	Hav	TARA CHAND
110	1205093	Hav	TEJ RAM
111	1140406	Hiv	TULA RAM YADAV
112	1140366	Hav	venu GOPALAN NAIR P

MADRAS ENGINEER GROUP

113	1311232	Hav	A ASHAKESAN
114	1310947	Hav	A KRISHNAN
115	1310960	Hav	ARUMUGAM
116	1310806	Hav	B VELLAI
117	1310796	Hav	ETHIRAJ
118	1313090	Hav	J PONNAPPAN
119	1311206	Hav	K RAMACHANDRAN
120	1313147	Hav	KB KARUNAKARAN
121	1312915	Hav	KU CHUMMAR
122	1310954	Hav	KCN RAJAN
123	1312878	Hav	M KANAKARAJ
124	1310808	Hav	M KANNAN
125	1310873	Hiv	MUNISWAMY
126	1313215	Hav	PI LAZARUS
127	1313166	Hav	R PERIASWAMY
128	1313153	Hav	T THAMBIAPPAN
129	1310870	Hav	VKC SAMPATHRAJ
130	1313038	Hav	VELLAYAN

BENGAL ENGINEER GROUP

131	1419974	Hav	BHAG CHAND
132	1418930	Hav	BISHAN SINGH
133	1418920	Hav	CHANDRA BALLABH
134	1419641	Hav	DAN SINGH
135	1419546	Hav	GOPAL SINGH
136	1419922	Hav	GURDIAL SINGH
137	1419797	Hav	JASWANT SINGH
138	1419946	Hav	KRISHAN SINGH
139	1419229	Hav	MAHESHA NAND
140	1419580	Hav	RAM SINGH
141	1409601	Hav	RAM SUCHIT RAM
142	1409379	Hav	SATYA PRASAD
143	1409611	Hav	SUKHDEV SINGH

BOMBAY ENGINEER GROUP

144	1510697	Hav	AMAR SINGH
145	1562094	Hav	ANANT KADAM
146	1562192	Hav	APPASAHEB BHODE
147	1510694	Hav	BHAG SINGH
148	1510544	Hav	BHAG SINGH

149	1510749	Hav	BIHVAJI SURVE
150	1510619	Hav	BHOM SINGH
151	1562226	Hav	DAJBIR SINGH
152	1562110	Hav	DARSHAN SINGH
153	1510007	Hav	DINA NATH TIWARI
154	1510074	Hav	GURBACHAN SINGH
155	1562113	Hav	GURDEO SINGH
156	1562078	Hav	GURMEL SINGH
157	1510026	Hav	KARAM PAL SINGH
158	1510852	Hav	MOHAN SINGH
159	1562233	Hav	RAGHUNATH MORE
160	1562177	Hav	RAJARAM JAGTAP
161	1510677	Hav	RAMAKRISHNAN NAIR
162	1510711	Hav	RAMCHANDRA GHORPADE
163	1510674	Hav	SAKHARAM MORE
164	1510851	Hav	SARDARA SINGH
165	1510648	Hav	SHANTARAM JADHAV
166	1562121	Hav	SHANTARAM PALANDE
167	1510164	Hav	SURJIT SINGH
168	1562167	Hav	SURMUKH SINGH
169	1510828	Hav	TARSEM SINGH
170	1510538	Hav	VASANT KRISHNA KADAM
171	1510078	Hav	VISHRAM JUWEKAR
172	1510393	Hav	YESHWANT NIKAM

CORPS OF SIGNALS

173	6266800	Hav	ANNAPPA BALWANT CHINCHWADE
174	6266562	Hav	AWADHESH NARAIN TRIPATHI
175	6266491	Hav	BABOO RAM SHARMA
176	6269491	Hav	BACHAN SINGH RANA
177	6267074	Hav	BAGH SINGH
178	6262525	Hav	BAKSHI RAM
179	6267257	Hav	BALAKRISHNAN NAIR
180	6267228	Hav	BALDEV SINGH
181	6266789	Hav	C THOMAS
182	6267237	Hav	CHATAR SINGH
183	6267077	Hav	CHAU KHAN
184	6266846	Hav	CHHOTU RAM
185	6266313	Hav	CHINTAMAN JOSHI
186	6267112	Hav	DAYAL SINGH
187	6266025	Hav	DHYAN SINGH BISHT
188	6267126	Hav	GANGADHARAN NAIR
189	6267534	Hav	GAN SINGH
190	6262648	Hav	HANS RAJ
191	6267383	Hav	JAIKARAN NATH JOSHI
192	6266757	Hav	JASWANT SINGH
193	6267532	Hav	K KUTTI KRISHNAN NAMBIAR
194	6266383	Hav	KANHI RAM
195	6266086	Hav	KOKIL KANTA SINHA
196	6266803	Hav	KRISHAN DATT
197	6262686	Hav	KRISHAN LAL
198	6266749	Hav	MADHO SINGH
199	6267136	Hav	MAHARAJ SINGH
200	4139847	Hav	MOHAN SINGH
201	6266827	Hav	NAGENDRANATH TIWARI
202	6266998	Hav	NANAK CHAND
203	6264050	Hav	NARAIN SINGH PARMAR
204	6266920	Hav	PIRTHI SINGH
205	6266630	Hav	PREM SINGH
206	6267119	Hav	RAMESHWAR
207	6266900	Hav	RAMNARESH MISHRA
208	6267082	Hav	RAM SINGHASAN SINGH
209	6266990	Hav	RAM SUNDAR SINGH
210	6266488	Hav	ROSHAN LAL
211	6267436	Hav	ROSHAN LAL
212	6267148	Hav	S PARAMADHAYALAN

213	6266118	Hav	S THANGA RAJ
214	6266290	Hav	SANT PRASAD
215	6266670	Hav	SHIRI RANG GORE
216	6266076	Hav	SOUDAGAR SINGH
217	6265945	Hav	SUDHIR KUMAR CHAKI
218	6266253	Hav	SUNDAR SINGH
219	6265745	Hav	SUSHIL KUMAR

THE PARACHUTE REGIMENT

220	4142102	Hav	DHAN SINGH
221	2542561	Hav	P PADMANABHAN

THE PUNJAB REGIMENT

222	2438333	Hav	CHARAN SINGH
223	2438942	Hav	INDER SINGH
224	2438917	Hav	JHALMAL SINGH
225	2438947	Hav	JIT SINGH
226	2439041	Hav	JODHA RAM
227	2438951	Hav	JOGINDER SINGH
228	2438963	Hav	MOHAN SINGH
229	3945362	Hav	NIRMAL SINGH
230	2438812	Hav	PARBHU RAM
231	2438888	Hav	PARSHOTAM SINGH
232	2439039	Hav	RAM SARUP
233	2438770	Hav	SARWAN SINGH
234	2439100	Hav	SHAM SINGH
235	2438995	Hav	UTTAM CHAND

THE MADRAS REGIMENT

236	9202010	Hav	A ASIRDHAS
237	2542629	Hav	A SUBBIAH
238	2539569	Hav	C NARAYANAN NAIR
239	2542599	Hav	C VELAYDHAN NAIR
240	2539604	Hav	K KESAVAN NAIR
241	2542613	Hav	KR PERIANAYAGAM
242	2539951	Hav	M NATESAN
243	2539590	Hav	MOLLETTI VASUDE- VAMURTHY
244	2542485	Hav	S MOHAN
245	2539490	Hav	SHEIK AHMED
246	2542628	Hav	T RAMASWAMY
247	2539487	Hav	TK KOCHUNNI
248	2539512	Hav	VM GANESAN

THE GRENADIERS

249	2639785	Hav	BAWA RAM
250	2639865	Hav	DHANANTER SINGH
251	2639671	Hav	HARI SINGH
252	13406551	Hav	HARNATH SINGH
253	2639626	Hav	HIRA SINGH
254	2639706	Hav	INDER SINGH
255	2639512	Hav	JAI CHAND
256	2639540	Hav	KAPUR SINGH
257	2639637	Hav	KEHAR SINGH
258	2639744	Hav	KHUSHI RAM
259	2639522	Hav	NAFE SINGH
260	2639708	Hav	NET RAM
261	2639557	Hav	RAM KUMAR SINGH
262	2639731	Hav	RATTAN SINGH

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

263	2739126	Hav	ARJUN DALVI
264	2739318	Hav	BABAJI AIRE
265	2739527	Hav	BABU KADAM
266	2739492	Hav	BAHANUDAS JHAREKAR
267	2739383	Hav	BHAGWANT ARJUN SAWANT

268	2739310	Hav	BHIMRAO GANGANE
269	2739835	Hav	DINKAR PATIL
270	2739216	Hav	KASHINATHA PAWALE
271	2739178	Hav	KHAJA MOINUDDIN
272	2739426	Hav	KHANDU AWAD
273	2739141	Hav	LAXMAN GHORPADE
274	2739167	Hav	MARUTI GANPATI CHA- WAN
275	2739458	Hav	NARAYAN CHALKE
276	2739153	Hav	RAJARAM DESAI
277	2739169	Hav	SHANKAR KASTURI
278	2739136	Hav	SHANTARAM AMBRE
279	2739181	Hav	SHANTARAM GHAG
280	2739827	Hav	VISHWANATH GHULE

THE RAJPUTANA RIFLES

281	2843206	Hav	AJIT SINGH
282	2842808	Hav	AWADH BIHARI SINGH
283	2842902	Hav	BAHADUR SINGH
284	2842563	Hav	BIRBAL RAM
285	2842797	Hav	CHHABI NATH SINGH
286	2842701	Hav	DAYA NAND RAM
287	2842776	Hav	JAGDEO SINGH
288	2842950	Hav	JORAWAR RAM
289	2840666	Hav	MANGEJ SINGH
290	2843096	Hav	MEGH SINGH
291	2842711	Hav	PEM SINGH
292	2842726	Hav	RAM CHANDRA
293	2842690	Hav	RAM SINGH
294	2842631	Hav	RAWAT SINGH
295	2833066	Hav	RUP SINGH
296	2840667	Hav	SAJJAN SINGH RAM
297	2842766	Hav	SHIRI PAL SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

298	2943682	Hav	DES RAJ
299	2943780	Hav	DEVI DAS CHOUDHURY
300	2942512	Hav	HARI NATH SINGH
301	2943696	Hav	HEM SINGH
302	2943782	Hav	KASHI RAM
303	2943529	Hav	KHUSHAL SINGH
304	2943677	Hav	PEM SINGH
305	2943519	Hav	RAM BALI SINGH
306	2943785	Hav	YESH PAL SINGH

THE JAT REGIMENT

307	3343060	Hav	AVTAR SINGH
308	3140304	Hav	BALWANT SINGH
309	3140289	Hav	BHANO
310	3140416	Hav	BHIM SINGH
311	3140437	Hav	CHANDRA SEN
312	3140413	Hav	DAYA RAM
313	3140419	Hav	DIGH RAM
314	3140357	Hav	GOGAN RAM
315	3140365	Hav	HANUMAN PRASHAD
316	3140162	Hav	HARIRAJ SINGH
317	3140287	Hav	HOSHIAR SINGH
318	2438768	Hav	NET RAM
319	3140165	Hav	RANBIR SINGH
320	2438494	Hav	SHIVE CHAND SINGH
321	3140329	Hav	VISHNU DUTT VERMA

THE SIKH REGIMENT

322	3343020	Hav	AJMER SINGH
323	3342850	Hav	ARJAN SINGH
324	3343002	Hav	BALDEV SINGH
325	3342874	Hav	CHAIN SINGH

326	3342911	Hav	DARSHAN SINGH
327	3342886	Hav	GURDEV SINGH
328	3342979	Hav	GURMEJ SINGH
329	3342846	Hav	HARNEK SINGH
330	3342974	Hav	HAZURA SINGH
331	3343093	Hav	JARNAIL SINGH
332	3342909	Hav	LAKHWANT SINGH
333	3343163	Hav	RACHHPAL SINGH
334	3342902	Hav	RAM SINGH
335	3343059	Hav	RESHAM SINGH
336	3343041	Hav	SUCHA SINGH
337	3342995	Hav	TARLOK SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

338	4435537	Hav	DALIP SINGH
339	4434365N	Hav	DARSHAN SINGH
340	4435839W	Hav	GURNAM SINGH
341	4435822H	Hav	JIT SINGH
342	4435764K	Hav	KARPAL SINGH
343	4435463	Hav	KARTAR SINGH
344	4435750K	Hav	NIRBHAI SINGH
345	4435834X	Hav	PARSA SINGH
346	4435752P	Hav	PIARA SINGH
347	4435755H	Hav	RUR SINGH
348	4435828K	Hav	SURJAN SINGH

THE DOGRA REGIMENT

349	3945661	Hav	ANIRUDH CHAND
350	3945279	Hav	BALDEV SINGH
351	3945395	Hav	BALWANT SINGH
352	3934085	Hav	BHAGAT RAM
353	3935025	Hav	BIR SINGH
354	3945331	Hav	BUDHI RAM
355	3945506	Hav	DIWAN SINGH
356	3945544	Hav	GANDHARAB SINGH
357	3935532	Hav	HUKAM CHAND
358	3933626	Hav	JAI SINGH
359	3941785	Hav	JAISHI RAM
360	3945684	Hav	JET RAM
361	3945574	Hav	JHANDA SINGH
362	3945695	Hav	KAMER SINGH JASWAL
363	3945433	Hav	KARAM SINGH
364	3945564	Hav	KASHMIR SINGH
365	3945311	Hav	RAM SINGH
366	3945305	Hav	RAMEL SINGH
367	3945559	Hav	RIKHI RAM
368	3945332	Hav	SUGRIB CHAND
369	3945194	Hav	TARBIJ SINGH

THE GARHWAL RIFLES

370	4035471	Hav	BALAM SINGH
371	4035378	Hav	GOBIND SINGH JAGI
372	4035435	Hav	GUNDER SINGH NEGI
373	4035533	Hav	JAGDISH SINGH GUSAIN
374	4035611	Hav	JAGMOHAN PARSHAD DUKLAN
375	4035147	Hav	JAI SINGH DANU
376	4035528	Hav	LACHHMAN SINGH BISHT
377	4035215	Hav	PURAN SINGH KATHAIT
378	4035532	Hav	RAGHUBIR SINGH BIST
379	4035545	Hav	SAKTI PRASHAD JOSHI
380	4035201	Hav	THEP SINGH BISHT

THE KUMAON REGIMENT

381	4141822	Hav	ATTAR SINGH
382	4141810	Hav	BACHI SINGH

383	4141821	Hav	DEOKI NANDAN PANT
384	4142060	Hav	DHARAM SINGH CHAUHAN
385	4141973	Hiv	GOPAL SINGH
386	4141462	Hiv	MINTRAJ SINGH
387	4141867	Hav	MOHAN SINGH DHAPOLA
388	4141790	Hav	NARAIN SINGH
389	4141727	Hav	PURAN MAL
390	4141988	Hav	SARDAR SINGH YADAV
391	4141991	Hav	SHIB SINGH

THE BIHAR REGIMENT

392	4235345	Hav	DEWA KACHHAP
393	4235229	Hav	JAGAR NATH TIWARI
394	4235224	Hiv	KABILAS SINGH
395	4235315	Hav	MANGRA MUNDA
396	4235286	Hav	RAJ BALI SINGH
397	4235223	Hav	SIRKA JOJO

THE MAHAR REGIMENT

398	9201853	Hav	BALWANT SINGH
399	4533862	Hav	BHAGWAN LOKHANDE
400	4534600	Hav	DATTATRAY CHAVAN
401	5334067	Hav	DHAN BAHADUR THAPA
402	9202537	Hav	HONSLA PRASAD
403	4534278	Hav	KALLAPPA KURNE
404	9202315	Hav	LAL SINGH
405	4141740	Hav	MAN SINGH
406	9202453	Hav	PIRTHI SINGH
407	9201710	Hav	PREM CHAND
408	4035171	Hav	SHYAM SINGH RAWAT
409	4533720	Hav	VASANT TIPPA KAMBLE
410	4534220	Hav	WISHWANATH DHAKRE
411	4534927	Hav	YESHWANT KAMBLE

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES AND LADAKH SCOUTS

412	13713598	Hav	AGYA RAM
413	9100885	Hav	GHULAM MUSTAFA
414	9100879	Hav	TUNDUP GUNBO

THE NAGA REGIMENT

415	4142090	Hav	TRILOK CHAND
-----	---------	-----	--------------

THE JAMMU AND KASHMIR MILITIA

416	9092878	Hav	GANDHI LAL
417	9106099	Hav	MAKHAN LAL
418	9092933	Hav	MOHD HAFIZ
419	9106275	Hav	NAHAR SINGH
420	9093015	Hav	SHEIKH GHULAM AHMED

1 GORKHA RIFLES

421	5032170	Hav	BALDEV SINGH THAPA
422	5032189	Hav	EMAN BAHADUR GURUNG
423	5032186	Hav	NAR BAHADUR GURUNG
424	5735707	Hiv	PADAM BAHADUR TAMANG
425	5032180	Hav	RATTAN BAHADUR CHHETRI
426	5031834	Hav	SURENDAR SINGH BURA

3 GORKHA RIFLES

427	5232872	Hav	MAN BAHADUR THAPA
-----	---------	-----	-------------------

4 GORKHA RIFLES

428	5333640	Hav	MANHOR SINGH BURA
429	5333668	Hav	SOBIR THAPA
430	5333655	Hav	SUKHURAM THAPA

5 GORKHA RIFLES

431	5434936	Hav	DEOBAHADUR PUN
432	5435059	Hav	KHARAKSINGH GURUNG
433	5434803	Hav	TAKBAHADUR RANA

8 GORKHA RIFLES

434	5735774	Hav	BHIMBAHADUR THAPA
435	5735741	Hav	GOBINDSINGH RANA
436	5735763	Hav	MANBAHADUR THAPA
437	5735800	Hav	NARAYANSINGH THAKURI
438	5735812	Hav	PAHALSINGH THAPA
439	5735817	Hav	TIKABAHADUR THAPA

9 GORKHA RIFLES

440	5833429	Hav	BISHNA BAHADUR SAHI
-----	---------	-----	---------------------

11 GORKHA RIFLES

441	9403381	Hav	BHAY BAHADUR LIMBU
442	9403373	Hav	BIR BAHADUR LIMBU
443	9403356	Hav	RAN BAHADUR LIMBU

ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

444	1138304	Hav	DANDAPANI BHATTA- CHARJYA
445	1138611	Hav	KRISHNA DESHPANDE
446	6347271	Hav	LAXMAN JADHAV
447	6347417	Hav	LAXMAN SHAHANE
448	6588360	Hav	MV GANGADHARAN
449	6346832	Hav	RAM DEEN
450	7130636	Hav	T PAUL

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

451	6443099	DFR	THIAGI SINGH
-----	---------	-----	--------------

ARMY SERVICE CORPS (MECHANICAL TRANSPORT)

452	6583622	Hav	FATEH CHAND
453	6588451	Hav	KHEMAJI JAYABHAYE
454	6587596	Hav	PRITHI SINGH
455	6587369	Hav	RATTAN SINGH

ARMY MEDICAL CORPS

456	6783245	Hav	HARI SHANKER SINGH
457	6783349	Hav	MANOHAR
458	6783281	Hav	PV GOVINDAN NAMBIAR

ARMY ORDNANCE CORPS

459	6866645	Hav	B CHAKRAPANI
460	6866781	Hav	BHANWAR SINGH VERMA
461	6861415	Hav	PARIMAL KUMAR BHATTACHARJI

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

462	1310126	Hav	A NATARAJAN
463	7028595	Hav	ABDUL REHMAN
464	7027291	Hav	BALESHWAR SINGH
465	7027876	Hav	BIPIN CHANDRA SHUKLA
466	7028290	Hav	CHOWDHARYA
467	7009340	Hav	DALMINDER SINGH
468	7027305	Hav	FOUJA SINGH
469	7027986	Hav	GOVIND SINGH
470	7008748	Hav	GURBACHAN SINGH
471	7027366	Hav	HARINDER SINGH
472	7028411	Hav	JAGAT SINGH
473	7026815	Hav	KA GANAPATHY
474	7027908	Hav	KT JACOB
475	7027370	Hav	KARAM CHAND
476	7027738	Hav	KHARAK SINGH
477	7028382	Hav	LACHMAN SINGH PARMAR
478	7028139	Hav	MA DASS
479	7025473	Hav	MADHAB CHANDRA DEY
480	7027471	Hav	MARUTI GHODKE
481	7027342	Hav	NARENDRO NOTH CHIO V DHRY
482	7026668	Hav	PN RAVINDRANATHAN
483	7027910	Hav	PARTAP SINGH
484	7028418	Hav	PREM SINGH
485	7027705	Hav	PRITHVI SINGH
486	7027977	Hav	R MUTHU RAMAN
487	7028205	Hav	RAM ASRA
488	7027798	Hav	SIAMLIANA LUSHAI
489	7029160	Hav	SURJAN SINGH
490	7008298	Hav	TV NARAYANAN NAMBIAR
491	7013095	Hav	TIRLOK SINGH
492	7027012	Hav	VC CLEATUS
493	7028052	Hav	VASANT PONKSHE
494	11142267	Hav	VASANT YADAVRAO PATIL
495	7027158	Hav	VITHAL SANKPAL

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

496	7230220	DFR	AJIT SINGH
-----	---------	-----	------------

ARMY EDUCATIONAL CORPS

497	3343166	Hav	AJIT SINGH
498	6587377	Hav	GOVIND SINGH
499	1023195	Hav	JAGDISH PRASAD SINGH
500	4142085	Hav	MATHURA DATI
501	6866606	Hav	MUNSHI LAL
502	4141767	Hav	RISAL SINGH

THE INTELLIGENCE CORPS

503	1023527	Hav	KASHMIR SINGH
504	6588205	Hav	WAMAN INGLE

CORPS OF MILITARY POLICE

505	2740214	Hav	GAJANAN BALU PHADTARE
506	1023464	Hav	GOPAL KRISHANA PILLAI
507	6587530	Hav	JAGAT SINGH
508	3945632	Hav	JULFI RAM
509	5333146	Hav	KESAR BHADUR GURUNG
510	4035639	Hav	MURTI LAL BAHUGUNA
511	3140308	Hav	UMED SINGH

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

512	6267524	CHM	KK BHASKARAN NAIR
513	3943053	CHM	ROSHAN LAL
514	4035476	CHM	UMED SINGH NEGI
515	6587451	Hav	GULAB CHAND

THE PIONEER CORPS

516	4435896	Hav	BHAJAN SINGH
517	6230129	Hav	K VENGAYYA DASS
518	7960594	Hav	MACHFALE

DEFENCE SECURITY CORPS

519	8794656	Hav	BALU BHOSLE
520	8796563	Hav	SANT RAM
521	8802256	Hav	SINGRUP SINGH NEGI

सं० 5-ई, दिनांक 22 जनवरी 1976.—भारत स्थित प्रादेशिक सेना विनियामावली 1948 के पैरा 31 के आधीन राष्ट्रपति सहर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 1976) के अवसर पर निम्नलिखित जे सी ओ को सेना से निवृत्त होने पर अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं:—

अवैतनिक सूबेदार मेजर के रैंक में

1 टी जे 899	सूबेदार	शिगारा सिंह
-------------	---------	-------------

एम० एल० डवे,

संयुक्त सचिव (पी एण्ड डब्ल्यू) ।

No. 5-E, dated 22nd January 1976.—The President is pleased to grant honorary rank to the under mentioned JCO of the Territorial Army under Para 31 of the Regulations for the Territorial Army—1948, on 26 January, 1976:—

To be Honorary Subedar Major

1. TJ 899 SUB SHANGARA SINGH

M. L. DAVE,

Joint Secy. (P. & W.).

सं० 6-ई, दिनांक 7 जनवरी 1976.—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

भारतीय नौसेना

स्थायी संवर्ग

स्पेशल ड्यूटीज लिस्ट

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को 26 जनवरी, 1976 से भारतीय नौसेना में सक्रिय सूची पर अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है:—

अवैतनिक सब-लेफ्टिनेन्ट "स्पेशल ड्यूटीज" के पद पर

क्रम संख्या	नाम	रैंक	संख्या
1.	शिव सिंह	एम सी पी ओ I	31804
2.	जे एस नाथन	एम सी पी ओ I	9162
3.	विलियम	एम सी पी ओ I	9153
4.	मोती राय	एम सी एम (ई) I	10378
5.	बी एन राव	एम सी वाई एस I	29572

क्रम संख्या	नाम	रैंक	संख्या
6.	एल डी सूजा	एम सी ई ए पी ।	11554
7.	एस मेडोजा	एम सी पी ओ कुक (एस) ।	15313
8.	बी राजू	एम सी पी ओ एम ए ।	28702
9.	के एम वर्षाजि	एम सी पी ओ एम ए ।	32716

No. 6-E, dated 7th January 1976.—The President is pleased to make the following appointments :—

(INDIAN NAVY)

PERMANENT CADRE

SPECIAL DUTIES LIST

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Active List in the Indian Navy with effect from the 26 January, 1976:

To be Honorary Sub-Lieutenants "Special Duties"

Sl. No.	Name	Rank	No.
1	SHIV SINGH	MCPO I	31804
2	JS NATHAN	MCPO I	9162
3	WILLIAM	MCPO I	9153
4	MOTI RAI	MC M (E) I	10378
5	VN RAO	MC YS I	29572
6	L D' SOUZA	MC EAP I	11554
7	S MENDOZA	MCPO CK(S) I	15313
8	V RAJU	MCPO MA I	28702
9	KM VARGHESE	MCPO MA I	32716

सं० 7-ई, दिनांक 20 दिसम्बर, 1975.—निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को 26 जनवरी, 1976 से भारतीय नौसेना में अवैतनिक कमीशन प्रदान किए जाते हैं:—

निवृत्त सूची में अवैतनिक सब-लेफ्टिनेट (स्पेशल ड्यूटीज) के पद पर

क्रम सं०	नाम	रैंक	संख्या
1	पी बी नायर	एम सी पी ओ I (जी आई)	39908
2	ओ बी शेषाद्री	एम सी पी ओ I	39421
3	बी जे एन्थनी	एम सी पी ओ I	21722
4	एस राम	एम सी पी ओ I	40329
5	ए डी विल्सन	एम सी पी ओ I (जी आई)	41045
6	जे बारल	एम सी पी ओ एस टी डी I	29187
7	एस होलेण्ड	एम सी पी ओ राइटर I	19975
8	टेक मेनन	एम सी पी ओ एम ए I	35141
9	एल सिंह	एम सी एम (ई) I	35039

सी० पी० रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव ।

No. 7-E, dated 20th December 1975.—The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commissions in the Indian Navy with effect from the 26 January, 1976 :

To be Honorary Sub-Lieutenants (Special Duties) on the Retired list

Sl. No.	Name	Rank	No.
1	PV NAIR	MCPO I (GI)	39908
2	OV SESHADARI	MCPO I	39421
3	VJ ANTHONY	MCPO I	21722
4	S RAM	MCPO I	40329
5	AD WILSON	MCPO I (GI)	41045
6	I BARAL	MCPO STD I	29187
7	S HOULAND	MCPO WTR I	19975
8	TEK MENON	MCPO MA I	35141
9	L SINGH	MC M (E) I	35039

C. P. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

(वायु शाखा)

सं० 8 ई, दिनांक 17 जनवरी 1976.—यथा संशोधित वायुसेना अनुवेश 20/60 के अधीन निम्नलिखित आनरेरी फ्लाइटिंग अफसरों को 26 जनवरी, 1976 से आनरेरी फ्लाइट लैफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया जाता है —

27677 मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) मुन्नमणियन, डी	इन्विजन/असिस्टेंट
27427 मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) मेनन, ए ई आर	क्लर्क/जी डी
14210 मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) सेन, पी एम	एफ II ए
22570 मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) भट्टाचार्य, के एन	फिटर/आर्मर
17666 मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) नन्दी, एस के	जी टी आई
3516 मास्टर वारंट अफसर (आनरेरी फ्लाइटिंग अफसर) सागल, एम एल	इलेक्ट 1

(AIR BRANCH)

No. 8-E, dated 17th January, 1976.—The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted Honorary Flight Lieutenants w.e.f 26th January, 1976 under AFI 20 of 1960 as amended :—

27677 MWO (Hony Fg Offr) Subramanian, D	Eq/Asst
27427 MWO (Hony Fg Offr) Menon, AER	Clk/GD
14210 MWO (Hony Fg Offr) Sen, PM	F II A
22570 MWO (Hony Fg Offr) Bhattacharjee, KN	Fit/Arm
17666 MWO (Hony Fg Offr) Nandi, SK	GTI
3516 MWO (Hony Fg Offr) Saigal, ML	Elect I

सं० 9-ई, दिनांक 17 जनवरी 1976.—यथा संशोधित वायुसेना अनुदेश 20/60 के अधीन निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों/वारंट अफसरों को 26 जनवरी, 1976 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में आन्तरेयी कमीशन प्रदान किया जाता है ।

12614 मास्टर वारंट अफसर डैनियल, ई एम	ए सी एच/ जी डी
26699 मास्टर वारंट अफसर बोस, एस एन	एफ एम टो
3455 वारंट अफसर गुप्ता, ए एन	इन्स्ट्रूमेन्ट/रिपेयरर 1
28639 वारंट अफसर थामस, बी के	क्लर्क/जी डी
10523 मास्टर वारंट अफसर स्वामी, ए बी	एफ II ए
13310 मास्टर वारंट अफसर सेठ, आर के	फोटो/मैकेनिक
19865 मास्टर वारंट अफसर डेविड, पी जी	वाम I

No. 9-B, dated 17th January 1976.—The undermentioned MWOs/WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer w.e.f. 26th January, 1976, under AFI 20 of 1960, as amended.

12614 MWO Daniel, EM	Ach/GD
24699 MWO Bose, SN	FMT
3455 WO Gupta, AN	Inst/Rep I
28639 WO Thomas, VK	Clk/GD
10523 MWO Swamy, AV	F II A
13310 MWO Seth, RK	Photo/Mech
19865 MWO David, PG	WOMI

सं० 10-ई, दिनांक 17 जनवरी 1976.—27807 मास्टर वारंट अफसर नायर, सी एन, क्लर्क एकाउंट्स (सेवा-निवृत्त) को सेवा निवृत्त सूची पर 26 जनवरी, 1976 से फ्लाईंग अफसर का आन्तरेयी रैंक प्रदान किया जाता है ।

के आर बालिगा, संयुक्त सचिव ।

No. 10-B, dated 17th January 1976.—27807 MWO Nair, GN, Clk/Accts (Retd.) is granted the Honorary Rank of Flying Officer w.e.f. 26th January, 1976 on the retired list.

K. R. BALIGA, Jt. Secy.

